



INDIA NON JUDICIAL




IN-UP50632431843214Y

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp



Certificate No. 4226 : IN-UP50632431843214Y
Certificate Issued Date 26 : 12-Mar-2026 11:54 AM
Account Reference : NEWIMPACC (SV)/ up14675304/ MURADABAD SADAR/ UP-MRD
Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUP1467530495970638080904Y
Purchased by : MORADABAD DEVELOPMENT AUTHORITY MORADABAD
Description of Document : Article 31 Exchange of property
Property Description : PROPERTY SITUATED AT SAHYADRI YOJNA (PURV MAI SONAKPUR YOJNA) TEH AND DISTT MORADABAD
Consideration Price (Rs.) :
First Party : MORADABAD DEVELOPMENT AUTHORITY MORADABAD
Second Party : ZULFIKAR ALI SO BANNEY KHAN
Stamp Duty Paid By : MORADABAD DEVELOPMENT AUTHORITY MORADABAD
Stamp Duty Amount(Rs.) : 2,32,610
 (Two Lakh Thirty Two Thousand Six Hundred And Ten only)



VERIFIED BY

[Signature]

LOCKED BY

[Signature]

[Signature]



सहा० सम्पत्ति प्रनारी
मुसदाबाद विकास प्राधिकरण,
मुसदाबाद.

PF 0015478379

Disclaimer Alert:

- The authenticity of the Stamp Certificate shown here verified at www.e-stamp.gov.in or using e-Stamp Machine (ESM) at Bank Branch.
- The date of stamping is the date of issue of the certificate.
- In case of any discrepancy please advise the Court over e-stamp.

5174



10/10/2020



भूखण्ड की कुल कीमत रू०	:- 33,22,440.00
मालियत पूर्णांक करने	
के पश्चात देय स्टाम्प रू०	:- 2,32,580.00
ई-स्टाम्प नंबर	:- IN-UP50632431843214Y
ई-स्टाम्प रू०	:- 2,32,610.00
निबन्धन शुल्क रू०	:-

समायोजन/विनिमय डीड

आज दिनांक- 17/03/2026 को यह समायोजन/विनिमय डीड मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद द्वारा श्री देवेन्द्र सिंह यादव, सहायक सम्पत्ति प्रभारी, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, जिन्हे आगे प्रथम पक्ष कहा गया है

एवं

श्री जुल्फेकार अली पुत्र श्री बन्ने खॉ निवासी-ग्राम भोला सिंह की मिलक तहसील व जिला- मुरादाबाद जिन्हे आगे द्वितीय पक्ष कहा गया है, के मध्य अनुसूची-अ व ब में वर्णित भूमि का विनिमय-विलेख समायोजित भूखण्ड/भूमि का स्वामित्व एवं कब्जा प्रदान किये जाने हेतु निष्पादित किया जा रहा है। सहयाद्रि योजना (पूर्व में सोनकपुर योजना) के अन्तर्गत कतिपय भू-स्वामियों की कुछ भूमि ऐसी भी है, जो न तो अधिग्रहीत की गयी है और न ही प्राधिकरण द्वारा क्रय की गयी है, ऐसी भूमि के सम्बन्ध में भू-स्वामियों की भूमि के बदले 50 प्रतिशत भूमि के विकसित भूखण्ड, भू-स्वामियों को दिये जाने तथा विकसित भूखण्डो पर नियमानुसार विकास शुल्क प्राप्त किये जाने की स्वीकृति, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की 133वीं बोर्ड बैठक दिनांक-05.09.2023 के मद सं०-133/05 तथा 142वीं बोर्ड बैठक दिनांक- 27.09.2025 के मद संख्या- 142/03 में दी जा चुकी है।

और चूंकि प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष की, अनुसूची में वर्णित भूखण्ड/कृषि भूमि, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की ग्राम-सोनकपुर, तहसील व जिला- मुरादाबाद में सहयाद्रि योजना के अन्तर्गत स्थित है, अतः उक्त प्रस्ताव के प्रकाश में आगे अभिव्यक्त अधिकारों एवं शर्तों के अधीन, अनुसूची में निर्दिष्ट भूखण्ड/भूमि, जिसको मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के विकसित क्षेत्र में होने के कारण, विनिमय के आधार पर प्रदान किया जा रहा है, द्वितीय पक्ष को हस्तान्तरित किया जा रहा है।

2/2/26



2/2/26

सहा० सम्पत्ति प्रभारी
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण
मुरादाबाद



ग्राम-सोनकपुर तहसील व जिला मुरादाबाद स्थित गाटा संख्या- 628 अ एवं 628 ब की कुल भूमि 0.0178 व0मी0 (Rounded Off 0.0178 हेक्टे0) भूमि का जिलाधिकारी, मुरादाबाद द्वारा निर्धारित दर के अनुसार भूमि की मालियत की गणना निम्नवत् है :-

तालिका- 1

गाटा संख्या	रकबा हेक्टे0 में	जिलाधिकारी, मुरादाबाद द्वारा 2025-26 की निर्धारित सर्किल दर	मालियत रूपये में
628 अ एवं ब	0.0178 व0मी0 (Rounded Off 0.0178 हेक्टे0)	9000/- प्रति वर्ग मी0	16,02,000.00
कुल घनांक रू0			16,02,000.00

तालिका- 2

द्वितीय पक्ष को दिये जाने वाले भूखण्डों व धनराशि सहित कुल मालियत-

भूखण्ड सं0	कुल रकबा वर्ग मी0 में	मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा भूखण्डों की निर्धारित की गयी आवासीय दर	मालियत रूपये में
पॉकेट-ए (सेक्टर-2) के भूखण्ड संख्या-190 अर्थात 01 भूखण्ड (भूखण्ड का क्षेत्रफल 72.00 व0मी0-टाईप- डी)	72.00	39,600/- प्रति वर्ग मी0	28,51,200.00
देय भूखण्डों का क्षेत्रफल 50% से कम होने के कारण, कम क्षेत्रफल 17.00 व0मी0 के सापेक्ष प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को देय धनराशि	17.00	27,720/- प्रति वर्ग मी0	4,71,240.00
कुल मालियत			33,22,440.00

उपरोक्त वर्णित तालिकाओं में तालिका- 2 में अंकित भूखण्डों की मालियत अधिक होने के कारण उक्त मालियत पर स्टाम्प अदा किया जा रहा है, जिसका विवरण तालिका- A में अंकित गया है।

मुरादाबाद विकास प्राधिकरण बोर्ड के उक्त निर्णय के अनुपालन में प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष के स्वामित्व की गाटा संख्या- 628 अ एवं 628 ब की कुल भूमि 0.0178 व0मी0 (Rounded Off 0.0178 हेक्टे0) योजना के अन्तर्गत स्थित होने के क्रम में समायोजित होने वाले देय विकसित भूखण्ड का विवरण इस प्रकार है :-

तालिका- A

1	द्वितीय पक्ष/भू-स्वामी का नाम व पता	श्री जुल्फेकार अली पुत्र श्री बन्ने खॉ निवासी-ग्राम भोला सिंह की मिलक तहसील व जिला- मुरादाबाद	
2	द्वितीय पक्ष की भूमि का गाटा संख्या एवं प्रभावित क्षेत्रफल	गाटा संख्या- 628 अ एवं 628 ब की कुल भूमि 0.0178 व0मी0 (Rounded Off 0.0178 हेक्टे0)	
3	बोर्ड निर्णय अनुसार 50% भूमि का क्षेत्रफल	89.00 वर्ग मी0	
4	समायोजन/विनिमय हेतु प्रस्तावित आवासीय भूखण्डों का विवरण	पॉकेट-ए (सेक्टर-2) के भूखण्ड संख्या- 190 अर्थात 01 भूखण्ड	72.00 व0मी0
पॉकेट-ए (सेक्टर-2) के भूखण्ड संख्या- 190 अर्थात 01 भूखण्ड (भूखण्ड का क्षेत्रफल 72.00 व0मी0-टाईप- डी) पूर्ण रूप से गाटा संख्या- 640 पर अवस्थित है।			



2

सहायक प्रभारी
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण
मुरादाबाद




5	गाटा संख्या- 628 अ एवं 628 ब की कुल भूमि 0.0178 वर्गमी० (Rounded Off 0.0178 हेक्टे०) भूमि का 50 प्रतिशत, समायोजित भूमि क्षेत्रफल 89.00 वर्ग मीटर भूमि के सापेक्ष, विकसित भूखंड के कुल क्षेत्रफल 72.00 वर्ग मी०, द्वितीय पक्ष को दिया जा रहा है तथा अतिरिक्त क्षेत्रफल 17.00 वर्ग मी० भूमि के मूल्य का भुगतान प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को किया जा रहा है। द्वितीय पक्ष द्वारा विनिमय विलेख निष्पादित करने पर आने वाले व्यय (स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन शुल्क) का वहन करने में असमर्थता व्यक्त करने के कारण द्वितीय पक्ष को देय धनराशि में से उक्त धनराशि का समायोजन किया जा रहा है।	कुल 01 भूखण्ड	भूखण्डों का कुल क्षेत्र	72.00 वर्ग मी०
6	समायोजन/विनिमय हेतु प्रस्तावित आवासीय भूखण्डों का कुल क्षेत्रफल	72.00 वर्गमी०		
7	निर्धारित 50% से क्षेत्रफल (अधिक/कम)	89.00-72.00= 17.00 वर्ग मी० कम		
8	द्वितीय पक्ष को देय 17.00 वर्ग मी० कम भूमि के सापेक्ष प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को देय धनराशि, जिसका भुगतान प्राधिकरण द्वारा 142वीं बोर्ड बैठक में लिए गये निर्णय के क्रम में द्वितीय पक्ष द्वारा किया जा रहा है।	रु० 4,71,240.00		
9	द्वितीय पक्ष को देय भूखंड के कुल क्षेत्रफल का मूल्य	72 X रु० 39,600.00= रु० 28,51,200.00		
10	कुल मालियत	रु० 33,22,440.00		
11	कॉलम सं०-10 में अंकित कुल मालियत पर द्वितीय पक्ष द्वारा देय कुल स्टाम्प एवं	रु० 33,22,440.00 X 7% = 2,32,580.00		
	निबंधन/पंजीयन शुल्क	रु० 33,22,440.00 X 1% = 33,230.00		
12	प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को उसकी समायोजित भूमि (50 प्रतिशत) 89.00 वर्गमी० के सापेक्ष उपलब्ध करायी गयी, 72.00 वर्गमी० भूमि अर्थात् 17.00 वर्गमी० कम भूमि के सापेक्ष, प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को कम भूमि का मूल्य धनांक रु० 4,71,240.00 में से स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन शुल्क धनराशि रु० 2,65,910.00 समायोजित कर शेष धनराशि रु०-2,05,330.00 का भुगतान बैंक सं०-400659 दिनांक 11.03.2026 के द्वारा द्वितीय पक्ष को किया जा रहा है।	रु०- 2,05,330.00		

अतः द्वितीय पक्ष द्वारा अनुसूची-अ में वर्णित आवासीय भूखण्ड का उपयोग, मुरादाबाद विकास क्षेत्र की महायोजना के भू-उपयोग के आधार पर, उपयोग किया जाना है।

यह विलेख साक्षी है कि, अनुसूची-अ में वर्णित भूखण्डों को, द्वितीय पक्ष के पक्ष में, विनिमय किये जाने हेतु, प्रथम पक्ष एतद्वारा स्वीकार करता है, कि प्रतिफलस्वरूप, तथा आगे वर्णित प्रसंविदाओं और शर्तों, जिनका द्वितीय पक्ष पालन करेगा, को ध्यान में रखकर, प्रथम पक्ष वह भूखण्ड, उसकी सीमाओं सहित, जिसका विवरण इस विलेख की अनुसूची-अ में दिया गया है, इस विनिमय विलेख के निष्पादन के दिनांक से, इसकी अनुसूची-अ में वर्णित भूखण्डों पर द्वितीय पक्ष को समस्त वैधानिक आवश्यकतायें/विधिक औपचारिकताएँ पूर्ण होने के पश्चात्, कब्जा प्राप्त हो जायेगा तथा प्रथम पक्ष/मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के अभिलेखों में द्वितीय पक्ष का नाम नियमानुसार अंकित किया





सहा० संपत्ति प्रभारी
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण
मुरादाबाद



आवेदन सं०: 202600719010144

विनिमय विलेख

वही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 4226

वर्ष: 2026

प्रतिफल- 3322440 स्टाम्प शुल्क- 232610 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 33230 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 60 योग : 33290

श्री जुल्फेकार अली,
पुत्र श्री बन्ने खां
व्यवसाय : नौकरी
निवासी: भोला सिंह की मिलक तहसील व जिला मुरादाबाद



ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 17/03/2026 एवं 05:05:23 PM बजे निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के साक्षर

जय प्रकाश

उप निबंधक : सदर प्रथम

मुरादाबाद

17/03/2026

रूपत कुमार

निबंधक लिपिक

17/03/2026



जायेगा तथा अनुसूची-ब में वर्णित भूमि, पर प्रथम पक्ष/एम०डी०ए० को निजी स्वामित्व एवं कब्जा प्राप्त हो जायेगा तथा राजस्व अभिलेखों में प्रथम पक्ष, प्रथम पक्ष/मुरादाबाद विकास प्राधिकरण अपना नाम दर्ज कराने का पूर्ण अधिकारी होगा। द्वितीय पक्ष प्रभावी विधि, नियमों एवं विनियमों के अधीन, उक्त भूखण्ड को हस्तान्तरित कर सकेगा एवं भूखण्ड पर निर्माण किये जाने वाले भवन पर देय करों को अथवा उस पर भविष्य में लगाये जाने वाले करों का भुगतान करेगा तथा निर्माण करने से पूर्व, नियमानुसार, तत्समय लागू विकास शुल्क का भुगतान करते हुए, प्रथम पक्ष से अनुज्ञा प्राप्त करेगा। विनिमय विलेख के निष्पादन होने के उपरान्त, द्वितीय पक्ष एवं उसके वारिसान द्वारा भविष्य में अनुसूची ब में वर्णित भूमि पर किसी प्रकार का दावा/वाद-विवाद, किसी भी न्यायालय में करने का अधिकारी नहीं होगा। विनिमय विलेख निष्पादित होने के उपरान्त, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण/प्रथम पक्ष को द्वितीय पक्ष से प्राप्त भूमि पर विकास कार्य करने का पूर्ण अधिकार होगा और इस सम्बन्ध में द्वितीय पक्ष को किसी भी प्रकार की, कोई भी आपत्ति करने का अधिकार नहीं होगा। इस विनिमय विलेख के निष्पादन की तिथि से अनुसूची-ब में वर्णित भूमि में द्वितीय पक्ष का स्वामित्व, कब्जा एवं समस्त अधिकार समाप्त हो जायेगे एवं स्वामित्व एवं कब्जा सम्बन्धी समस्त अधिकार पूर्णतः प्रथम पक्ष को प्राप्त होंगे, तथा किसी भी प्रकार का कोई भी क्लेम/दावा इस बावत द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष के विरुद्ध, किसी भी न्यायालय के समक्ष योजित नहीं किया जायेगा। इस विलेख के निष्पादन एवं पंजीयन के सम्बन्ध में होने वाले सम्पूर्ण व्यय को द्वितीय पक्ष द्वारा वहन किया जा रहा है।

यह स्पष्ट किया जाता है, कि इस विलेख में प्रयुक्त शब्द प्रथम पक्ष और द्वितीय पक्ष के सम्बन्ध में, जब तक कि उनकी इस प्रकार की व्याख्या प्रसंगों से असंगत न हो, प्रथम पक्ष उसके पद के उत्तराधिकारियों एवं समनुदेशितियों का तथा द्वितीय पक्ष में उसके दावाधिकारियों निष्पादकों, प्रबन्धकों, प्रतिनिधियों एवं समनुदेशितियों का अन्तर्भाव सदैव रहेगा। इस विनिमय विलेख के साक्ष्य में द्वितीय पक्ष ने और प्रथम पक्ष की ओर से उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी ने, उस तिथि को हस्ताक्षर कर दिये हैं, जो उनके हस्ताक्षर के नीचे लिखी है। इस विलेख में अभिदिष्ट अनुसूची निम्नवत है :-

अनुसूची-अ

जिसके स्वामी फरीक अब्दुल/प्रथम पक्ष मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद है तथा जिसकी आराजी/सम्पत्ति फरीक दोगम/द्वितीय पक्ष को विनिमय की जा रही है। सम्पत्ति का विवरण-

भूखंड संख्या	भूखंड का क्षेत्रफल	
पॉकेट-ए (सेक्टर-2)-भूखण्ड सं०- 190	72.00 वर्गमी०	
भूखंड का कुल क्षेत्रफल	72.00 वर्गमी०	
इस प्रकार निबन्धन हेतु भूखण्ड का कुल क्षेत्रफल	72.00 वर्गमी०	

Signature



Signature

सहा० सम्पत्ति प्रभारी
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण
मुरादाबाद



कल्पित कुमार.
निबंधक लिपिक मुरादाबाद
17/03/2026



अनुसूची-ब

जिसके स्वामी फरीक दायम/द्वितीय पक्ष श्री जुल्फेकार अली पुत्र श्री बन्ने खॉ निवासी-ग्राम भोला सिंह की मिलक तहसील व जिला- मुरादाबाद आराजी/सम्पत्ति फरीक गाटा संख्या- 628 अ एवं 628 ब की कुल भूमि 0.0178 वर्गमी० (Rounded Off 0.0178 हेक्टे०) अव्वल/प्रथम पक्ष को विनिमय की जा रही है तथा जिसका विवरण निम्नवत है:-

सम्पत्ति का विवरण/फोटोग्राफ



22/3/26

सहा० सम्पत्ति प्रभारी
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण
मुरादाबाद



आवेदन सं०: 202600719010144

बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 4226

वर्ष: 2026

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त
प्रथम पक्ष: 1

श्री सहायक सम्पत्ति प्रभारी मुरादाबाद विकास
प्राधिकरण के द्वारा देवेन्द्र सिंह यादव ,

MORADABAD DEVELOPMENT
AUTHORITY

पुत्र श्री राम मूर्ति यादव

निवासी: कार्यालय एम०डी०ए०

व्यवसाय: नौकरी

पक्षकार द्वारा सत्यापित पैन् XXXXXX 731M

द्वितीय पक्ष: 1



श्री जुल्फेकार अली,

ZULFIKAR ALI

पुत्र श्री बत्रे खां

निवासी: भोला सिंह की मिलक तहसील व जिला मुरादाबाद

व्यवसाय: नौकरी

पक्षकार द्वारा सत्यापित पैन् XXXXXX 805G

ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान
पहचानकर्ता : 1



श्री नरेन्द्र सिंह , पुत्र श्री खेम सिंह

निवासी: लेखपाल सोनकपुर मुरादाबाद

व्यवसाय: अन्य

पहचानकर्ता : 2



श्री दिलीप यादव , पुत्र श्री रंजीत सिंह यादव

निवासी: कार्यालय एम०डी०ए०

व्यवसाय: नौकरी

ने की । प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है ।
टिप्पणी :



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

जयप्रकाश
उप निबंधक सदर प्रथम
मुरादाबाद
17/03/2026

उभय पक्षों द्वारा आपसी सहमति के आधार पर निम्न गवाहों के समक्ष विनियम/समायोजन डीड पर हस्ताक्षर किये गये।

साक्षी नम्बर 1 -




हस्ताक्षर

नाम- श्री नरेन्द्र

पदनाम - क्षेत्रीय लेखपाल, ग्राम सोनकपुर, तहसील व जिला मुरादाबाद।

पिता का नाम - श्री खेम सिंह



साक्षी नम्बर 2 -



हस्ताक्षर

नाम - श्री दिलीप यादव

पदनाम - लिपिक, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद।

पिता का नाम - सश0 रंजीत सिंह यादव









सहा० सम्पत्ति प्रभारी
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण
मुरादाबाद



आवेदन सं०: 202600719010144

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 20857 के पृष्ठ 249 से 264 तक क्रमांक 4226 पर
दिनांक 17/03/2026 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

जय प्रकाश

उप निबंधक : नगर प्रथम

मुरादाबाद

17/03/2026





INDIA NON JUDICIAL



IN-UP50638134287132Y

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp



Certificate No. **4229** : IN-UP50638134287132Y
 Certificate Issued Date **26** : 12-Mar-2026 11:55 AM
 Account Reference : NEWIMPACC (SV)/ up14675304/ MURADABAD SADAR/ UP-MRD
 Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUP1467530495973443951577Y
 Purchased by : MORADABAD DEVELOPMENT AUTHORITY MORADABAD
 Description of Document : Article 31 Exchange of property
 Property Description : PROPERTY SITUATED AT SAHYADRI YOJNA (PURV MAI SONAKPUR YOJNA) TEH AND DISTT MORADABAD
 Consideration Price (Rs.) :
 First Party : MORADABAD DEVELOPMENT AUTHORITY MORADABAD
 Second Party : IMRAN ALI SO BANNEY KHAN
 Stamp Duty Paid By : MORADABAD DEVELOPMENT AUTHORITY MORADABAD
 Stamp Duty Amount(Rs.) : 2,32,610
 (Two Lakh Thirty Two Thousand Six Hundred And Ten only)



VERIFIED BY

LOCKED BY

Please write or type below this line.

सहा० सम्पत्ति प्रभारी
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण
मुरादाबाद

PF 0015478380

Statutory Alert

1. The authenticity of this e-stamp certificate should be verified at www.e-stamp.com or using e-Stamp Mobile App of Bank Holding.
2. Any discrepancy or loss of e-stamp certificate, and its recovery to the holder, is subject to the applicable mobile app providers terms.
3. In case of any inconsistency please inform the Competent Authority.

5711



058746110



भूखण्ड की कुल कीमत रू०	:- 33,22,440.00
मालियत पूर्णांक करने	
के पश्चात देय स्टाम्प रू०	:- 2,32,575.00
ई-स्टाम्प नंबर	:- IN-UP50638134287132Y
ई-स्टाम्प रू०	:- 2,32,610.00
निबन्धन शुल्क रू०	:-

समायोजन/विनिमय डीड

आज दिनांक- 17/03/2026 को यह समायोजन/विनिमय डीड मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद द्वारा श्री देवेन्द्र सिंह यादव, सहायक सम्पत्ति प्रभारी, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, जिन्हे आगे प्रथम पक्ष कहा गया है

एवं

श्री इमरान अली पुत्र श्री बन्ने खॉं निवासी- भोला सिंह की मिलक तहसील व जिला मुरादाबाद जिन्हे आगे द्वितीय पक्ष कहा गया है, के मध्य अनुसूची-अ व ब में वर्णित भूमि का विनिमय-विलेख समायोजित भूखण्ड/भूमि का स्वामित्व एवं कब्जा प्रदान किये जाने हेतु निष्पादित किया जा रहा है। सहयाद्रि योजना (पूर्व में सोनकपुर योजना) के अन्तर्गत कतिपय भू-स्वामियों की कुछ भूमि ऐसी भी है, जो न तो अधिग्रहीत की गयी है और न ही प्राधिकरण द्वारा क्रय की गयी है, ऐसी भूमि के सम्बन्ध में भू-स्वामियों की भूमि के बदले 50 प्रतिशत भूमि के विकसित भूखण्ड, भू-स्वामियों को दिये जाने तथा विकसित भूखण्डों पर नियमानुसार विकास शुल्क प्राप्त किये जाने की स्वीकृति, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की 133वीं बोर्ड बैठक दिनांक- 05.09.2023 के मद सं०-133/05 तथा 142वीं बोर्ड बैठक दिनांक- 27.09.2025 के मद संख्या- 142/03 में दी जा चुकी है।

और चूंकि प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष की, अनुसूची में वर्णित भूखण्ड/कृषि भूमि, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की ग्राम-सोनकपुर, तहसील व जिला- मुरादाबाद में सहयाद्रि योजना के अन्तर्गत स्थित है, अतः उक्त प्रस्ताव के प्रकाश में आगे अभिव्यक्त अधिकारों एवं शर्तों के अधीन, अनुसूची में निर्दिष्ट भूखण्ड/भूमि, जिसको मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के विकसित क्षेत्र में होने के कारण, विनिमय के आधार पर प्रदान किया जा रहा है, द्वितीय पक्ष को हस्तान्तरित किया जा रहा है।



सहा० सम्पत्ति प्रभारी
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण
मुरादाबाद



ग्राम-सोनकपुर तहसील व जिला मुरादाबाद स्थित गाटा संख्या- 628 अ एवं 628 ब की कुल भूमि 0.0178 व0मी0 (Rounded Off 0.0178 हेक्टे0) भूमि का जिलाधिकारी, मुरादाबाद द्वारा निर्धारित दर के अनुसार भूमि की मालियत की गणना निम्नवत् है :-

तालिका- 1

गाटा संख्या	रकबा हेक्टे0 में	जिलाधिकारी, मुरादाबाद द्वारा 2025-26 की निर्धारित सर्किल दर	मालियत रूपये में
628 अ एवं ब	0.0178 व0मी0 (Rounded Off 0.0178 हेक्टे0)	9000/- प्रति वर्ग मी0	16,02,000.00
कुल धनांक रू0			16,02,000.00

तालिका- 2

द्वितीय पक्ष को दिये जाने वाले भूखण्डो व धनराशि सहित कुल मालियत-

भूखण्ड सं0	कुल रकबा वर्ग मी0 में	मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा भूखण्डो की निर्धारित की गयी आवासीय दर	मालियत रूपये में
पॉकेट-ए (सेक्टर-2) के भूखण्ड संख्या- 193 अर्थात 01 भूखण्ड (भूखण्ड का क्षेत्रफल 72.00 व0मी0-टाईप- डी)	72.00	39,600/- प्रति वर्ग मी0	28,51,200.00
देय भूखण्डों का क्षेत्रफल 50% से कम होने के कारण, कम क्षेत्रफल 17.00 व0मी0 के सापेक्ष प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को देय धनराशि	17.00	27,720/- प्रति वर्ग मी0	4,71,240.00
कुल मालियत			33,22,440.00

उपरोक्त वर्णित तालिकाओं में तालिका- 2 में अंकित भूखण्डो की मालियत अधिक होने के कारण उक्त मालियत पर स्टाम्प अदा किया जा रहा है, जिसका विवरण तालिका- A में अंकित गया है।

मुरादाबाद विकास प्राधिकरण बोर्ड के उक्त निर्णय के अनुपालन में प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष के स्वामित्व की गाटा संख्या- 628 अ एवं 628 ब की कुल भूमि 0.0178 व0मी0 (Rounded Off 0.0178 हेक्टे0) योजना के अन्तर्गत स्थित होने के क्रम में समायोजित होने वाले देय विकसित भूखण्ड का विवरण इस प्रकार है :-

तालिका- A


1	द्वितीय पक्ष/भू-स्वामी का नाम व पता	श्री इमरान अली पुत्र श्री बन्ने खॉ निवासी- भोला सिंह की मिलक तहसील व जिला मुरादाबाद	
2	द्वितीय पक्ष की भूमि का गाटा संख्या एवं प्रभावित क्षेत्रफल	गाटा संख्या- 628 अ,ब की भूमि 0.0178 हेक्टे0	
3	बोर्ड निर्णय अनुसार 50% भूमि का क्षेत्रफल	89.00 वर्ग मी0	
4	समायोजन/विनिमय हेतु प्रस्तावित आवासीय भूखण्डो का विवरण	पॉकेट-ए (सेक्टर-2) के भूखण्ड संख्या- 193 अर्थात 01 भूखण्ड	72.00 व0मी0
पॉकेट-ए (सेक्टर-2) के भूखण्ड संख्या- 193 अर्थात 01 भूखण्ड (भूखण्ड का क्षेत्रफल 72.00व0मी0-टाईप- डी) पूर्ण रूप से गाटा संख्या- 640 पर अवस्थित है।			


सहा० सम्पत्ति प्रभारी
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण
मुरादाबाद



5	गाटा संख्या- 628 अ एवं 628 ब की कुल भूमि 0.0178 व0मी0 (Rounded Off 0.0178 हेक्ट0) भूमि का 50 प्रतिशत, समायोजित भूमि क्षेत्रफल 89.00 वर्ग मीटर भूमि के सापेक्ष, विकसित भूखंड के कुल क्षेत्रफल 72.00 वर्ग मी0, द्वितीय पक्ष को दिया जा रहा है तथा अतिरिक्त क्षेत्रफल 17.00 वर्ग मी0 भूमि के मूल्य का भुगतान प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को किया जा रहा है। द्वितीय पक्ष द्वारा विनिमय विलेख निष्पादित करने पर आने वाले व्यय (स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन शुल्क) का वहन करने में असमर्थता व्यक्त करने के कारण द्वितीय पक्ष को देय धनराशि में से उक्त धनराशि का समायोजन किया जा रहा है।	कुल 01 भूखण्ड	भूखण्डों का कुल क्षेत्र	72.00 वर्ग मी0
6	समायोजन/विनिमय हेतु प्रस्तावित आवासीय भूखण्डों का कुल क्षेत्रफल	72.00व0मी0		
7	निर्धारित 50% से क्षेत्रफल (अधिक/कम)	89.00-72.00= 17.00 वर्ग मी0 कम		
8	द्वितीय पक्ष को देय 17.00 वर्ग मी0 कम भूमि के सापेक्ष प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को देय धनराशि, जिसका भुगतान प्राधिकरण द्वारा 142वीं बोर्ड बैठक में लिए गये निर्णय के क्रम में प्रथम पक्ष द्वारा किया जा रहा है।	रु0 4,71,240.00		
9	द्वितीय पक्ष को देय भूखंड के कुल क्षेत्रफल का मूल्य	72 X रु0 39,600.00= रु0 28,51,200.00		
10	कुल मालियत	रु0 33,22,440.00		
11	कॉलम सं0-10 में अंकित कुल मालियत पर द्वितीय पक्ष द्वारा देय कुल स्टाम्प एवं	रु0 33,22,440.00 X 7% = 2,32,575.00		
	निबंधन/पंजीयन शुल्क	रु0 33,22,440.00 X 1% = 33,225.00		
12	प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को उसकी समायोजित भूमि (50 प्रतिशत) 89.00व0मी0 के सापेक्ष उपलब्ध करायी गयी, 72.00व0मी0 भूमि अर्थात 17.00 व0मी0 कम भूमि के सापेक्ष, प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को कम भूमि का मूल्य धनांक रु0 4,71,240.00 में से स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन शुल्क धनराशि रु0 2,65,910.00 समायोजित कर शेष धनराशि रु0-2,05,330.00 का भुगतान चैक सं0-400657 दिनांक 11.03.2026 के द्वारा द्वितीय पक्ष को किया जा रहा है।	रु0- 2,05,330.00		

अतः द्वितीय पक्ष द्वारा अनुसूची-अ में वर्णित आवासीय भूखण्ड का उपयोग, मुरादाबाद विकास क्षेत्र की महायोजना के भू-उपयोग के आधार पर, उपयोग किया जाना है।




सहा० सम्पत्ति प्रभारी
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण
मुरादाबाद



आवेदन सं०: 202600719010149

विनिमय विलेख

वही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 4229

वर्ष: 2026

प्रतिफल- 3322440 स्टाम्प शुल्क- 232610 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 33230 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 60 रांग : 33290

श्री इमरान अली,
पुत्र श्री बन्ने खां
व्यवसाय : नौकरी
निवासी: भोला सिंह की मिलक तहसील व जिला मुरादाबाद



ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 17/03/2026 एवं 05:07:09 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

जय प्रकाश,
उप निबंधक : सदर प्रथम
मुरादाबाद
17/03/2026

कल्पित कुमार
निबंधक लिपिक
17/03/2026





यह विलेख साक्षी है कि, अनुसूची-अ में वर्णित भूखण्डों को, द्वितीय पक्ष के पक्ष में, विनिमय किये जाने हेतु, प्रथम पक्ष एतद्वारा स्वीकार करता है, कि प्रतिफलस्वरूप, तथा आगे वर्णित प्रसंविदाओं और शर्तों, जिनका द्वितीय पक्ष पालन करेगा, को ध्यान में रखकर, प्रथम पक्ष वह भूखण्ड, उसकी सीमाओं सहित, जिसका विवरण इस विलेख की अनुसूची-अ में दिया गया है, इस विनिमय विलेख के निष्पादन के दिनांक से, इसकी अनुसूची-अ में वर्णित भूखण्डों पर द्वितीय पक्ष को समस्त वैधानिक आवश्यकतायें/विधिक औपचारिकताएँ पूर्ण होने के पश्चात्, कब्जा प्राप्त हो जायेगा तथा प्रथम पक्ष/मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के अभिलेखों में द्वितीय पक्ष का नाम नियमानुसार अंकित किया जायेगा तथा अनुसूची-ब में वर्णित भूमि, पर प्रथम पक्ष/एम०डी०ए० को निजी स्वामित्व एवं कब्जा प्राप्त हो जायेगा तथा राजस्व अभिलेखों में प्रथम पक्ष, प्रथम पक्ष/मुरादाबाद विकास प्राधिकरण अपना नाम दर्ज कराने का पूर्ण अधिकारी होगा। द्वितीय पक्ष प्रभावी विधि, नियमों एवं विनियमों के अधीन, उक्त भूखण्ड को हस्तान्तरित कर सकेगा एवं भूखण्ड पर निर्माण किये जाने वाले भवन पर देय करों को अथवा उस पर भविष्य में लगाये जाने वाले करों का भुगतान करेगा तथा निर्माण करने से पूर्व, नियमानुसार, तत्समय लागू विकास शुल्क का भुगतान करते हुए, प्रथम पक्ष से अनुज्ञा प्राप्त करेगा। विनिमय विलेख के निष्पादन होने के उपरान्त, द्वितीय पक्ष एवं उसके वारिसान द्वारा भविष्य में अनुसूची ब में वर्णित भूमि पर किसी प्रकार का दावा/वाद-विवाद, किसी भी न्यायालय में करने का अधिकारी नहीं होगा। विनिमय विलेख निष्पादित होने के उपरान्त, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण/प्रथम पक्ष को द्वितीय पक्ष से प्राप्त भूमि पर विकास कार्य करने का पूर्ण अधिकार होगा और इस सम्बन्ध में द्वितीय पक्ष को किसी भी प्रकार की, कोई भी आपत्ति करने का अधिकार नहीं होगा। इस विनिमय विलेख के निष्पादन की तिथि से अनुसूची-ब में वर्णित भूमि में द्वितीय पक्ष का स्वामित्व, कब्जा एवं समस्त अधिकार समाप्त हो जायेगे एवं स्वामित्व एवं कब्जा सम्बन्धी समस्त अधिकार पूर्णतः प्रथम पक्ष को प्राप्त होंगे, तथा किसी भी प्रकार का कोई भी क्लेम/दावा इस बावत द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष के विरुद्ध, किसी भी न्यायालय के समक्ष योजित नहीं किया जायेगा। इस विलेख के निष्पादन एवं पंजीयन के सम्बन्ध में होने वाले सम्पूर्ण व्यय को द्वितीय पक्ष द्वारा वहन किया जा रहा है।

यह स्पष्ट किया जाता है, कि इस विलेख में प्रयुक्त शब्द प्रथम पक्ष और द्वितीय पक्ष के सम्बन्ध में, जब तक कि उनकी इस प्रकार की व्याख्या प्रसंगों से असंगत न हो, प्रथम पक्ष उसके पद के उत्तराधिकारियों एवं समनुदेशितियों का तथा द्वितीय पक्ष में उसके दावाधिकारियों निष्पादकों, प्रबन्धकों, प्रतिनिधियों एवं समनुदेशितियों का अन्तर्भाव सदैव रहेगा। इस विनिमय विलेख के साक्ष्य में द्वितीय पक्ष ने और प्रथम पक्ष की ओर से उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी ने, उस तिथि को हस्ताक्षर कर दिये हैं, जो उनके हस्ताक्षर के नीचे लिखी है। इस विलेख में अभिदिष्ट अनुसूची निम्नवत है :-

अनुसूची-अ

जिसके स्वामी फरीक अव्वल/प्रथम पक्ष मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद है तथा जिसकी आराजी/सम्पत्ति फरीक दोगम/द्वितीय पक्ष को विनिमय की जा रही है। सम्पत्ति का विवरण-

भूखंड संख्या	भूखंड का क्षेत्रफल	
पॉकेट-ए (सेक्टर-2)-भूखण्ड सं०- 193	72.00 व०मी०	
भूखंड का कुल क्षेत्रफल	72.00 व०मी०	
इस प्रकार निबन्धन हेतु भूखण्ड का कुल क्षेत्रफल	72.00 व०मी०	




सहा० सम्पत्ति प्रभारी
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण
मुरादाबाद



कल्पित कुमार
निबंधक लिपिक मुरादाबाद
17/03/2026



अनुसूची-ब

जिसके स्वामी फरीक दोगम/द्वितीय पक्ष श्री इमरान अली पुत्र श्री बन्ने खॉ निवासी- भोला सिंह की मिलक तहसील व जिला मुरादाबाद आराजी/सम्पत्ति फरीक गाटा संख्या- 628 अ एवं 628 ब की कुल भूमि 0.0178 व0मी0 (Rounded Off 0.0178 हेक्टे0) अब्बल/प्रथम पक्ष को विनिमय की जा रही है तथा जिसका विवरण निम्नवत है:-

सम्पत्ति का विवरण/फोटोग्राफ



gls
A purple ink fingerprint is placed below the signature.

Imran

सहाय सम्पत्ति प्रभारी
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण
मुरादाबाद



आवेदन सं०: 202600719010149

बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 4229

वर्ष: 2026

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त
प्रथम पक्ष: 1

श्री सहायक सम्पत्ति प्रभारी मुरादाबाद विकास
प्राधिकरण के द्वारा देवेन्द्र सिंह यादव ,

[MORADABAD DEVELOPMENT
AUTHORITY

पुत्र श्री राम मूर्ति यादव

निवासी: कार्यालय एम०डी०ए०

व्यवसाय: नौकरी

पक्षकार द्वारा सत्यापित पै न XXXXXX 731M

द्वितीय पक्ष: 1



श्री इमरान अली,

[IMRAN ALI

पुत्र श्री बन्ने खां

निवासी: भोला सिंह की मिलक तहसील व जिला मुरादाबाद

व्यवसाय: नौकरी

पक्षकार द्वारा सत्यापित पै न XXXXXX 776B



ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान
पहचानकर्ता : 1

श्री नरेन्द्र सिंह , पुत्र श्री खेम सिंह

निवासी: लेखपाल सोनकपुर मुरादाबाद

व्यवसाय: नौकरी

पहचानकर्ता : 2



श्री दिलीप यादव , पुत्र श्री रंजीत सिंह यादव

निवासी: एम०डी०ए० मुरादाबाद

व्यवसाय: नौकरी

ने की । प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है ।
टिप्पणी :



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

जय प्रकाश .
उप निबंधक - सदर प्रथम
मुरादाबाद
17/03/2026

उभय पक्षों द्वारा आपसी सहमति के आधार पर निम्न गवाहों के समक्ष विनिमय/समायोजन डीड पर हस्ताक्षर किये गये।

साक्षी नम्बर 1 -

हस्ताक्षर

नाम- श्री नरेन्द्र

पदनाम - क्षेत्रीय लेखपाल, ग्राम सौनकपुर, तहसील व जिला मुरादाबाद।

पिता का नाम - श्री खेम सिंह



साक्षी नम्बर 2 -

हस्ताक्षर

नाम - श्री दिलीप यादव

पदनाम - लिपिक, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद।

पिता का नाम - स्व० रंजीत सिंह यादव



सडा० सम्पत्ति प्रभारी
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण
मुरादाबाद



आवेदन सं०: 20260719010149

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 20857 के पृष्ठ 297 से 312 तक क्रमांक 4229 पर
दिनांक 17/03/2026 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर


जय प्रकाश

उप निबंधक : सादा प्रथम

मुरादाबाद

17/03/2026





INDIA NON JUDICIAL



IN-UP50642831697625Y


Government of Uttar Pradesh

e-Stamp



4230
26

Certificate No.	:	IN-UP50642831697625Y
Certificate Issued Date	:	12-Mar-2026 11:56 AM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14675304/ MORADABAD SADAR/ UP-MRD
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP1467530495979852850920Y
Purchased by	:	MORADABAD DEVELOPMENT AUTHORITY MORADABAD
Description of Document	:	Article 31 Exchange of property
Property Description	:	PROPERTY SITUATED AT SAHYADRI YOJNA (PURV MAI SONAKPUR YOJNA) TEH AND DISTT MORADABAD
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	MORADABAD DEVELOPMENT AUTHORITY MORADABAD
Second Party	:	TUFAIL ALI SO BANNEY KHAN
Stamp Duty Paid By	:	MORADABAD DEVELOPMENT AUTHORITY MORADABAD
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	2,32,610 (Two Lakh Thirty Two Thousand Six Hundred And Ten only)



VERIFIED BY

Please Sign or type below this line

LOCKED BY

Signature



Signature

Signature
सहा० सम्पत्ति प्रमारी
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण
मुरादाबाद

PF 0015478381

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp Certificate should be verified at www.stamp.com or via the Stamp Mobile App of Stock Holding Corporation of India.
2. The cost of checking the authenticity on the users of the certificate.
3. To get any information please inform the Competent Authority.

546



1987A7100



भूखण्ड की कुल कीमत रू०	:- 33,22,440.00
मालियत पूर्णांक करने	
के पश्चात देय स्टाम्प रू०	:- 2,32,580.00
ई-स्टाम्प नंबर	:- IN-UP50642831697625Y
ई-स्टाम्प रू०	:- 2,32,610.00
निबन्धन शुल्क रू०	:-

समायोजन/विनिमय डीड


आज दिनांक- 17/03/2026 को यह समायोजन/विनिमय डीड मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद द्वारा श्री देवेन्द्र सिंह यादव, सहायक सम्पत्ति प्रभारी, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, जिन्हे आगे प्रथम पक्ष कहा गया है

एवं

श्री तुफैल अली पुत्र श्री बन्ने खॉ निवासी-ग्राम भोला सिंह की मिलक तहसील व जिला- मुरादाबाद जिन्हे आगे द्वितीय पक्ष कहा गया है, के मध्य अनुसूची-अ व ब में वर्णित भूमि का विनिमय-विलेख समायोजित भूखण्ड/भूमि का स्वामित्व एवं कब्जा प्रदान किये जाने हेतु निष्पादित किया जा रहा है। सहयाद्रि योजना (पूर्व में सोनकपुर योजना) के अन्तर्गत कतिपय भू-स्वामियों की कुछ भूमि ऐसी भी है, जो न तो अधिग्रहीत की गयी है और न ही प्राधिकरण द्वारा क्रय की गयी है, ऐसी भूमि के सम्बन्ध में भू-स्वामियों की भूमि के बदले 50 प्रतिशत भूमि के विकसित भूखण्ड, भू-स्वामियों को दिये जाने तथा विकसित भूखण्डो पर नियमानुसार विकास शुल्क प्राप्त किये जाने की स्वीकृति, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की 133वीं बोर्ड बैठक दिनांक- 05.09.2023 के मद सं०-133/05 तथा 142वीं बोर्ड बैठक दिनांक- 27.09.2025 के मद संख्या- 142/03 में दी जा चुकी है।

और चूंकि प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष की, अनुसूची में वर्णित भूखण्ड/कृषि भूमि, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की ग्राम-सोनकपुर, तहसील व जिला- मुरादाबाद में सहयाद्रि योजना के अन्तर्गत स्थित है, अतः उक्त प्रस्ताव के प्रकाश में आगे अभिव्यक्त अधिकारों एवं शर्तों के अधीन, अनुसूची में निर्दिष्ट भूखण्ड/भूमि, जिसको मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के विकसित क्षेत्र में होने के कारण, विनिमय के आधार पर प्रदान किया जा रहा है, द्वितीय पक्ष को हस्तान्तरित किया जा रहा है।




सहा० सम्पत्ति प्रभारी
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण
मुरादाबाद






आवेदन सं०: 202600719010135

विनिमय विलेख

वही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 4230

वर्ष: 2026

प्रतिफल- 3322440 स्टाम्प शुल्क- 232610 बाजारी मूल्य- 0 पंजीकरण शुल्क - 33230 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 60 पोग: 33290

श्री तुफैल अली,
पुत्र श्री बन्ने खां
व्यवसाय: नौकरी
निवासी: भोला सिंह की मिलक तहसील व जिला मुरादाबाद

Subal Singh



ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 17/03/2026 एवं 05:00:11 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

Jay Prakash
जय प्रकाश,
उप निबंधक :सदर प्रथम
मुरादाबाद
17/03/2026

Kalpita Kumar
कल्पित कुमार,
निबंधक लिपिक
17/03/2026



ग्राम-सोनकपुर तहसील व जिला मुरादाबाद स्थित गाटा संख्या- 628 अ एवं 628 ब की कुल भूमि 0.0178 व0मी0 (Rounded Off 0.0178 हेक्टे0) भूमि का जिलाधिकारी, मुरादाबाद द्वारा निर्धारित दर के अनुसार भूमि की मालियत की गणना निम्नवत् है :-

तालिका- 1

गाटा संख्या	रकबा हेक्टे0 में	जिलाधिकारी, मुरादाबाद द्वारा 2025-26 की निर्धारित सर्किल दर	मालियत रूपये में
628 अ एवं ब	0.0178 व0मी0 (Rounded Off 0.0178 हेक्टे0)	9000/- प्रति वर्ग मी0	16,02,000.00
कुल घनांक रू0			16,02,000.00

तालिका- 2

द्वितीय पक्ष को दिये जाने वाले भूखण्डो व धनराशि सहित कुल मालियत-

भूखण्ड सं0	कुल रकबा वर्ग मी0 में	मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा भूखण्डो की निर्धारित की गयी आवासीय दर	मालियत रूपये में
पॉकेट-ए (सेक्टर-2) के भूखण्ड संख्या- 192 अर्थात 01 भूखण्ड (भूखण्ड का क्षेत्रफल 72.00 व0मी0-टाईप- डी)	72.00	39,600/- प्रति वर्ग मी0	28,51,200.00
देय भूखण्डों का क्षेत्रफल 50% से कम होने के कारण, कम क्षेत्रफल 17.00 व0मी0 के सापेक्ष प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को देय धनराशि	17.00	27,720/- प्रति वर्ग मी0	4,71,240.00
कुल मालियत			33,22,440.00

उपरोक्त वर्णित तालिकाओं में तालिका- 2 में अंकित भूखण्डो की मालियत अधिक होने के कारण उक्त मालियत पर स्टाम्प अदा किया जा रहा है, जिसका विवरण तालिका- A में अंकित गया है।

मुरादाबाद विकास प्राधिकरण बोर्ड के उक्त निर्णय के अनुपालन में प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष के स्वामित्व की 0.0178 व0मी0 (Rounded Off 0.0178 हेक्टे0) योजना के अन्तर्गत स्थित होने के क्रम में समायोजित होने वाले देय विकसित भूखण्ड का विवरण इस प्रकार है :-

तालिका- A

1	द्वितीय पक्ष/भू-स्वामी का नाम व पता	श्री तुफैल अली पुत्र श्री बन्ने खॉ निवासी-ग्राम भोला सिंह की मिलक तहसील व जिला- मुरादाबाद	
2	द्वितीय पक्ष की भूमि का गाटा संख्या एवं प्रभावित क्षेत्रफल	गाटा संख्या- 628 अ एवं 628 ब की कुल भूमि 0.0178 व0मी0 (Rounded Off 0.0178 हेक्टे0)	
3	बोर्ड निर्णय अनुसार 50% भूमि का क्षेत्रफल	89.00 वर्ग मी0	
4	समायोजन/विनिमय हेतु प्रस्तावित आवासीय भूखण्डो का विवरण	पॉकेट-ए (सेक्टर-2) के भूखण्ड संख्या- 192 अर्थात 01 भूखण्ड	72.00 व0मी0
पॉकेट-ए (सेक्टर-2) के भूखण्ड संख्या- 192 अर्थात 01 भूखण्ड (भूखण्ड का क्षेत्रफल 72.00 व0मी0-टाईप- डी) पूर्ण रूप से गाटा संख्या- 640 पर अवस्थित है।			

Erfaid Ali




 सहित संन्यास प्रमाण
 मुरादाबाद विकास प्राधिकरण



5	गाटा संख्या- 628 अ एवं 628 ब की कुल भूमि 0.0178 वर्ग मी० (Rounded Off 0.0178 हेक्टे०) भूमि का 50 प्रतिशत, समायोजित भूमि क्षेत्रफल 89.00 वर्ग मीटर भूमि के सापेक्ष, विकसित भूखंड के कुल क्षेत्रफल 72.00 वर्ग मी०, द्वितीय पक्ष को दिया जा रहा है तथा अतिरिक्त क्षेत्रफल 17.00 वर्ग मी० भूमि के मूल्य का भुगतान प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को किया जा रहा है। द्वितीय पक्ष द्वारा विनिमय विलेख निष्पादित करने पर आने वाले व्यय (स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन शुल्क) का वहन करने में असमर्थता व्यक्त करने के कारण द्वितीय पक्ष को देय धनराशि में से उक्त धनराशि का समायोजन किया जा रहा है।	कुल 01 भूखण्ड	भूखण्डो का कुल क्षेत्र	72.00 वर्ग मी०
6	समायोजन/विनिमय हेतु प्रस्तावित आवासीय भूखण्डो का कुल क्षेत्रफल	72.00 वर्ग मी०		
7	निर्धारित 50% से क्षेत्रफल (अधिक/कम)	89.00-72.00= 17.00 वर्ग मी० कम		
8	द्वितीय पक्ष को देय 17.00 वर्ग मी० कम भूमि के सापेक्ष प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को देय धनराशि, जिसका भुगतान प्राधिकरण द्वारा 142वीं बोर्ड बैठक में लिए गये निर्णय के क्रम में द्वितीय पक्ष द्वारा किया जा रहा है।	रु० 4,71,240.00		
9	द्वितीय पक्ष को देय भूखंड के कुल क्षेत्रफल का मूल्य	72 X रु० 39,600.00= रु० 28,51,200.00		
10	कुल मालियत	रु० 33,22,440.00		
11	कॉलम सं०-10 में अंकित कुल मालियत पर द्वितीय पक्ष द्वारा देय कुल स्टाम्प एवं	रु० 33,22,440.00 X 7% = 2,32,580.00		
	निबन्धन/पंजीयन शुल्क	रु० 33,22,440.00 X 1% = 33,230.00		
12	प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को उसकी समायोजित भूमि (50 प्रतिशत) 89.00 वर्ग मी० के सापेक्ष उपलब्ध करायी गयी, 72.00 वर्ग मी० भूमि अर्थात् 17.00 वर्ग मी० कम भूमि के सापेक्ष, प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को कम भूमि का मूल्य धनांक रु० 4,71,240.00 में से स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन शुल्क धनराशि रु० 2,65,910.00 समायोजित कर शेष धनराशि रु०-2,05,330.00 का भुगतान चैक सं०-400655 दिनांक 11.03.2026 के द्वारा द्वितीय पक्ष को किया जा रहा है।	रु०- 2,05,330.00		

अतः द्वितीय पक्ष द्वारा अनुसूची-अ में वर्णित आवासीय भूखण्ड का उपयोग, मुरादाबाद विकास क्षेत्र की महायोजना के भू-उपयोग के आधार पर, उपयोग किया जाना है।

[Handwritten Signature]



[Handwritten Signature]

सहा० सम्पत्ति प्रभारी
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण
मुरादाबाद



कल्पित कुमार
निबंधक लिपिक मुंबई
17/03/2026

प्रिंट करें



यह विलेख साक्षी है कि, अनुसूची-अ में वर्णित भूखण्डों को, द्वितीय पक्ष के पक्ष में, विनिमय किये जाने हेतु, प्रथम पक्ष एतद्वारा स्वीकार करता है, कि प्रतिफलस्वरूप, तथा आगे वर्णित प्रसंविदाओं और शर्तों, जिनका द्वितीय पक्ष पालन करेगा, को ध्यान में रखकर, प्रथम पक्ष वह भूखण्ड, उसकी सीमाओं सहित, जिसका विवरण इस विलेख की अनुसूची-अ में दिया गया है, इस विनिमय विलेख के निष्पादन के दिनांक से, इसकी अनुसूची-अ में वर्णित भूखण्डों पर द्वितीय पक्ष को समस्त वैधानिक आवश्यकतायें/विधिक औपचारिकताएँ पूर्ण होने के पश्चात, कब्जा प्राप्त हो जायेगा तथा प्रथम पक्ष/मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के अभिलेखों में द्वितीय पक्ष का नाम नियमानुसार अंकित किया जायेगा तथा अनुसूची-ब में वर्णित भूमि, पर प्रथम पक्ष/एम०डी०ए० को निजी स्वामित्व एवं कब्जा प्राप्त हो जायेगा तथा राजस्व अभिलेखों में प्रथम पक्ष, प्रथम पक्ष/मुरादाबाद विकास प्राधिकरण अपना नाम दर्ज कराने का पूर्ण अधिकारी होगा। द्वितीय पक्ष प्रभावी विधि, नियमों एवं विनियमों के अधीन, उक्त भूखण्ड को हस्तान्तरित कर सकेगा एवं भूखण्ड पर निर्माण किये जाने वाले भवन पर देय करों को अथवा उस पर भविष्य में लगाये जाने वाले करों का भुगतान करेगा तथा निर्माण करने से पूर्व, नियमानुसार, तत्समय लागू विकास शुल्क का भुगतान करते हुए, प्रथम पक्ष से अनुज्ञा प्राप्त करेगा। विनिमय विलेख के निष्पादन होने के उपरान्त, द्वितीय पक्ष एवं उसके वारिसान द्वारा भविष्य में अनुसूची ब में वर्णित भूमि पर किसी प्रकार का दावा/वाद-विवाद, किसी भी न्यायालय में करने का अधिकारी नहीं होगा। विनिमय विलेख निष्पादित होने के उपरान्त, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण/प्रथम पक्ष को द्वितीय पक्ष से प्राप्त भूमि पर विकास कार्य करने का पूर्ण अधिकार होगा और इस सम्बन्ध में द्वितीय पक्ष को किसी भी प्रकार की, कोई भी आपत्ति करने का अधिकार नहीं होगा। इस विनिमय विलेख के निष्पादन की तिथि से अनुसूची-ब में वर्णित भूमि में द्वितीय पक्ष का स्वामित्व, कब्जा एवं समस्त अधिकार समाप्त हो जायेगे एवं स्वामित्व एवं कब्जा सम्बन्धी समस्त अधिकार पूर्णतः प्रथम पक्ष को प्राप्त होंगे, तथा किसी भी प्रकार का कोई भी क्लेम/दावा इस बावत द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष के विरुद्ध, किसी भी न्यायालय के समक्ष योजित नहीं किया जायेगा। इस विलेख के निष्पादन एवं पंजीयन के सम्बन्ध में होने वाले सम्पूर्ण व्यय को द्वितीय पक्ष द्वारा वहन किया जा रहा है।

यह स्पष्ट किया जाता है, कि इस विलेख में प्रयुक्त शब्द प्रथम पक्ष और द्वितीय पक्ष के सम्बन्ध में, जब तक कि उनकी इस प्रकार की व्याख्या प्रसंगों से असंगत न हो, प्रथम पक्ष उसके पद के उत्तराधिकारियों एवं समनुदेशितियों का तथा द्वितीय पक्ष में उसके दावाधिकारियों निष्पादकों, प्रबन्धकों, प्रतिनिधियों एवं समनुदेशितियों का अन्तर्भाव सदैव रहेगा। इस विनिमय विलेख के साक्ष्य में द्वितीय पक्ष ने और प्रथम पक्ष की ओर से उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी ने, उस तिथि को हस्ताक्षर कर दिये हैं, जो उनके हस्ताक्षर के नीचे लिखी है। इस विलेख में अभिदिष्ट अनुसूची निम्नवत है :-

अनुसूची-अ

जिसके स्वामी फरीक अव्वल/प्रथम पक्ष मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद है तथा जिसकी आराजी/सम्पत्ति फरीक दोगम/द्वितीय पक्ष को विनिमय की जा रही है। सम्पत्ति का विवरण-

भूखंड संख्या	भूखंड का क्षेत्रफल	
पॉकेट-ए (सेक्टर-2)-भूखण्ड सं०- 192	72.00 व०मी०	
भूखंड का कुल क्षेत्रफल	72.00 व०मी०	
इस प्रकार निबन्धन हेतु भूखण्ड का कुल क्षेत्रफल	72.00 व०मी०	

Subair Ali

Subair
 सहा० सम्पत्ति प्रभारी
 मुरादाबाद विकास प्राधिकरण
 मुरादाबाद




अनुसूची-ब

जिसके स्वामी फरीक दोगम/द्वितीय पक्ष श्री तुफैल अली पुत्र श्री बन्ने खॉ निवासी-ग्राम भोला सिंह की मिलक तहसील व जिला- मुरादाबाद आराजी/सम्पत्ति फरीक गाटा संख्या- 628 अ एवं 628 ब की कुल भूमि 0.0178 व0मी0 (Rounded Off 0.0178 हेक्टे0) अब्बल/प्रथम पक्ष को विनिमय की जा रही है तथा जिसका विवरण निम्नवत है:-

सम्पत्ति का विवरण/फोटोग्राफ



Subir Singh



[Signature]

सहा० सम्पत्ति प्रभारी
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण
मुरादाबाद



आवेदन सं०: 202600719010135

बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 4230

वर्ष: 2026

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त
प्रथम पक्ष: 1

श्री सहायक सम्पत्ति प्रभारी मुरादाबाद विकास
प्राधिकरण के द्वारा देवेन्द्र सिंह यादव ,

MORADABAD DEVELOPMENT
AUTHORITY

पुत्र श्री राम मूर्ति यादव

निवासी: कार्यालय एम०डी०ए०

व्यवसाय: नौकरी

पक्षकार द्वारा सत्यापित पैन् XXXXXX 731M

द्वितीय पक्ष: 1



श्री तुफैल अली,

TUFAIL ALI

पुत्र श्री बन्ने खां

निवासी: भोला सिंह की मिलक तहसील व जिला मुरादाबाद

व्यवसाय: नौकरी

पक्षकार द्वारा सत्यापित पैन् XXXXXX 334N



ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान
पहचानकर्ता : 1

श्री नरेन्द्र सिंह , पुत्र श्री खेम सिंह

निवासी: लेखपाल सोनकपुर मुरादाबाद

व्यवसाय: नौकरी

पहचानकर्ता : 2



श्री दिलीप यादव , पुत्र श्री रंजीत सिंह यादव

निवासी: एम०डी०ए०

व्यवसाय: नौकरी

ने की । प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है ।
टिप्पणी :



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

जय प्रकाश .
उप निबंधक : सदर प्रथम
मुरादाबाद
17/03/2026

उभय पक्षों द्वारा आपसी सहमति के आधार पर निम्न गवाहों के समक्ष विनिमय/समायोजन डीड पर हस्ताक्षर किये गये।

साक्षी नम्बर 1 -



हस्ताक्षर

नाम- श्री नरेन्द्र

पदनाम - क्षेत्रीय लेखपाल, ग्राम सोनकपुर, तहसील व जिला मुरादाबाद।

पिता का नाम - श्री खेम सिंह



साक्षी नम्बर 2 -



हस्ताक्षर

नाम - श्री दिलीप यादव

पदनाम - लिपिक, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद।

पिता का नाम - स्व० रंजीत सिंह यादव



सहा० सम्पत्ति प्रभारी
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण
मुरादाबाद



आवेदन सं०: 20260719010135

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 20857 के पृष्ठ 313 से 328 तक क्रमांक 4230 पर
दिनांक 17/03/2026 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

जय प्रकाश

उप निबंधक : सतार प्रथम

मुरादाबाद

17/03/2026





INDIA NON JUDICIAL



IN-UP59422357941797Y


Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

Rectified e-stamp certificate is valid only if base e-stamp certificate is attached



Base Certificate No. : IN-UP50649315609719Y
 Rectified Certificate No. 4228 : IN-UP59422357941797Y
 Certificate issued Date 26 : 17-Mar-2026 02:04 PM
 Account Reference : NEWIMPACC (SV)/ up14675304/ MORADABAD SADAR/ UP-MRD
 Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUP1467530414128480491319Y
 Purchased by : MORADABAD DEVELOPMENT AUTHORITY MORADABAD
 Description of Document : Article 31 Exchange of property
 Property Description : PROPERTY SITUATED AT SAHYADRI YOJNA (PURV MAI SONAKPUR YOJNA) TEH AND DISTT MORADABAD
 Consideration Price (Rs.) :
 First Party : MORADABAD DEVELOPMENT AUTHORITY MORADABAD
 Second Party : IFTEKHAR ALI URF ISTAKHAR ALI SO BANNEY KHAN
 Stamp Duty Paid By : MORADABAD DEVELOPMENT AUTHORITY MORADABAD
 Stamp Duty Amount(Rs.) : 2,32,610
 (Two Lakh Thirty Two Thousand Six Hundred And Ten only)



VERIFIED BY

LOCKED BY

Lokendra



सहो सम्पत्ति प्रमारी
 मुरादाबाद विकास प्राधिकरण
 मुरादाबाद

PF 0015478390

Statutory (SCT)

The e-stamp certificate is valid only if base e-stamp certificate is attached to it. The e-stamp certificate is valid only if base e-stamp certificate is attached to it.

The e-stamp certificate is valid only if base e-stamp certificate is attached to it. The e-stamp certificate is valid only if base e-stamp certificate is attached to it.

SCHIL



COPIES





INDIA NON JUDICIAL




IN-UP50649315609719Y

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp



Certificate No. : IN-UP50649315609719Y
 Certificate Issued Date : 12-Mar-2026 11:57 AM
 Account Reference : NEWIMPACC (SV)/ up14675304/ MURADABAD SADAR/ UP-MRD
 Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUP1467530495984203749756Y
 Purchased by : MORADABAD DEVELOPMENT AUTHORITY MORADABAD
 Description of Document : Article 31 Exchange of property
 Property Description : PROPERTY SITUATED AT SAHYADRI YOJNA (PURV MAI SONAKPUR YOJNA) TEH AND DISTT MORADABAD
 Consideration Price (Rs.) :
 First Party : MORADABAD DEVELOPMENT AUTHORITY MORADABAD
 Second Party : IFTEKHAR ALI SO BANNEY KHAN
 Stamp Duty Paid By : MORADABAD DEVELOPMENT AUTHORITY MORADABAD
 Stamp Duty Amount (Rs.) : 2,32,610
 (Two Lakh Thirty Two Thousand Six Hundred And Ten only)



~~LOCKED BY~~

VERIFIED BY

Please write (or type) below this line

Handwritten signature



Handwritten signature

सहा० सम्पत्ति प्रभारी
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण
मुरादाबाद

PF 0015478382

Statutory Alert

1. The authenticity of this stamp certificate of land can be verified at www.stampsonline.gov.in or www.upstampsonline.gov.in or Press Helpline 1800-121-2345.
2. The user of this stamp certificate should be aware of the validity of the certificate.
3. In case of any dispute please contact the Competent Authority.

51 11



580742131

भूखण्ड की कुल कीमत रू० :- 33,22,440.00
मालियत पूर्णांक करने
के पश्चात देय स्टाम्प रू० :- 2,32,575.00
Base Certificate No :- IN-UP50649315609719Y
Rectified Certificate No :- IN-UP59422357941797Y
ई-स्टाम्प रू० :- 2,32,610.00
निबन्धन शुल्क :-



समायोजन/विनिमय डीड

आज दिनांक-17/03/2026 को यह समायोजन/विनिमय डीड मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद द्वारा श्री देवेन्द्र सिंह यादव, सहायक सम्पत्ति प्रभारी, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, जिन्हे आगे प्रथम पक्ष कहा गया है


एवं

श्री इफ्तेखार अली पुत्र श्री बन्ने खॉ निवासी- भोला सिंह की मिलक तहसील व जिला मुरादाबाद जिन्हे आगे द्वितीय पक्ष कहा गया है, के मध्य अनुसूची-अ व ब में वर्णित भूमि का विनिमय-विलेख समायोजित भूखण्ड/भूमि का स्वामित्व एवं कब्जा प्रदान किये जाने हेतु निष्पादित किया जा रहा है। सहयाद्रि योजना (पूर्व में सोनकपुर योजना) के अन्तर्गत कतिपय भू-स्वामियों की कुछ भूमि ऐसी भी है, जो न तो अधिग्रहीत की गयी है और न ही प्राधिकरण द्वारा क्रय की गयी है, ऐसी भूमि के सम्बन्ध में भू-स्वामियों की भूमि के बदले 50 प्रतिशत भूमि के विकसित भूखण्ड, भू-स्वामियों को दिये जाने तथा विकसित भूखण्डों पर नियमानुसार विकास शुल्क प्राप्त किये जाने की स्वीकृति, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की 133वीं बोर्ड बैठक दिनांक- 05.09.2023 के मद सं०-133/05 तथा 142वीं बोर्ड बैठक दिनांक- 27.09.2025 के मद संख्या- 142/03 में दी जा चुकी है।

और चूंकि प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष की, अनुसूची में वर्णित भूखण्ड/कृषि भूमि, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की ग्राम-सोनकपुर, तहसील व जिला- मुरादाबाद में सहयाद्रि योजना के अन्तर्गत स्थित है, अतः उक्त प्रस्ताव के प्रकाश में आगे अभिव्यक्त अधिकारों एवं शर्तों के अधीन, अनुसूची में निर्दिष्ट भूखण्ड/भूमि, जिसको मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के विकसित क्षेत्र में होने के कारण, विनिमय के आधार पर प्रदान किया जा रहा है, द्वितीय पक्ष को हस्तान्तरित किया जा रहा है।







सहा० सम्पत्ति प्रभारी
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण
मुरादाबाद



ग्राम-सोनकपुर तहसील व जिला मुरादाबाद स्थित गाटा संख्या- 628 अ एवं 628 ब की कुल भूमि 0.0178 व0मी0 (Rounded Off 0.0178 हेक्टे0) भूमि का जिलाधिकारी, मुरादाबाद द्वारा निर्धारित दर के अनुसार भूमि की मालियत की गणना निम्नवत् है :-

तालिका- 1

गाटा संख्या	रकबा हेक्टे0 में	जिलाधिकारी, मुरादाबाद द्वारा 2025-26 की निर्धारित सर्किल दर	मालियत रूपये में
628 अ एवं ब	0.0178 व0मी0 (Rounded Off 0.0178 हेक्टे0)	9000/- प्रति वर्ग मी0	16,02,000.00
कुल घनांक रू0			16,02,000.00

तालिका- 2

द्वितीय पक्ष को दिये जाने वाले भूखण्डों व धनराशि सहित कुल मालियत-

भूखण्ड सं0	कुल रकबा वर्ग मी0 में	मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा भूखण्डों की निर्धारित की गयी आवासीय दर	मालियत रूपये में
पॉकेट-ए (सेक्टर-2) के भूखण्ड संख्या- 191 अर्थात 01 भूखण्ड (भूखण्ड का क्षेत्रफल 72.00 व0मी0-टाईप- डी)	72.00	39,600/- प्रति वर्ग मी0	28,51,200.00
देय भूखण्डों का क्षेत्रफल 50% से कम होने के कारण, कम क्षेत्रफल 17.00 व0मी0 के सापेक्ष प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को देय धनराशि	17.00	27,720/- प्रति वर्ग मी0	4,71,240.00
कुल मालियत			33,22,440.00

उपरोक्त वर्णित तालिकाओं में तालिका- 2 में अंकित भूखण्डों की मालियत अधिक होने के कारण उक्त मालियत पर स्टाम्प अदा किया जा रहा है, जिसका विवरण तालिका- A में अंकित गया है।

मुरादाबाद विकास प्राधिकरण बोर्ड के उक्त निर्णय के अनुपालन में प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष के स्वामित्व की गाटा संख्या- 628 अ एवं 628 ब की कुल भूमि 0.0178 व0मी0 (Rounded Off 0.0178 हेक्टे0) योजना के अन्तर्गत स्थित होने के क्रम में समायोजित होने वाले देय विकसित भूखण्ड का विवरण इस प्रकार है :-

तालिका- A


1	द्वितीय पक्ष/भू-स्वामी का नाम व पता	श्री इफ्तेखार अली पुत्र श्री बन्ने खॉ निवासी- भोला सिंह की मिलक तहसील व जिला मुरादाबाद	
2	द्वितीय पक्ष की भूमि का गाटा संख्या एवं प्रमावित क्षेत्रफल	गाटा संख्या- 628 अ एवं 628 ब की कुल भूमि 0.0178 व0मी0 (Rounded Off 0.0178 हेक्टे0)	
3	बोर्ड निर्णय अनुसार 50% भूमि का क्षेत्रफल	89.00 वर्ग मी0	
4	समायोजन/विनिमय हेतु प्रस्तावित आवासीय भूखण्डों का विवरण	पॉकेट-ए (सेक्टर-2) के भूखण्ड संख्या- 191 अर्थात 01 भूखण्ड	72.00 व0मी0
पॉकेट-ए (सेक्टर-2) के भूखण्ड संख्या- 191 अर्थात 01 भूखण्ड (भूखण्ड का क्षेत्रफल 72.00 व0मी0-टाईप- डी) पूर्ण रूप से गाटा संख्या- 640 पर अवस्थित है।			

(Handwritten Signature)





(Handwritten Signature)


सहा० सान्नाति प्रभारी
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण
मुरादाबाद



5	गाटा संख्या- 628 अ एवं 628 ब की कुल भूमि 0.0178 वर्ग मी० (Rounded Off 0.0178 हेक्टे०) भूमि का 50 प्रतिशत, समायोजित भूमि क्षेत्रफल 89.00 वर्ग मीटर भूमि के सापेक्ष, विकसित भूखंड के कुल क्षेत्रफल 72.00 वर्ग मी०, द्वितीय पक्ष को दिया जा रहा है तथा अतिरिक्त क्षेत्रफल 17.00 वर्ग मी० भूमि के मूल्य का भुगतान प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को किया जा रहा है। द्वितीय पक्ष द्वारा विनिमय विलेख निष्पादित करने पर आने वाले व्यय (स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन शुल्क) का वहन करने में असमर्थता व्यक्त करने के कारण द्वितीय पक्ष को देय धनराशि में से उक्त धनराशि का समायोजन किया जा रहा है।	कुल 01 भूखण्ड	भूखण्डों का कुल क्षेत्र	72.00 वर्ग मी०
6	समायोजन/विनिमय हेतु प्रस्तावित आवासीय भूखण्डों का कुल क्षेत्रफल	72.00 वर्ग मी०		
7	निर्धारित 50% से क्षेत्रफल (अधिक/कम)	89.00-72.00= 17.00 वर्ग मी० कम		
8	द्वितीय पक्ष को देय 17.00 वर्ग मी० कम भूमि के सापेक्ष प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को देय धनराशि, जिसका भुगतान प्राधिकरण द्वारा 142वीं बोर्ड बैठक में लिए गये निर्णय के क्रम में प्रथम पक्ष द्वारा किया जा रहा है।	रु० 4,71,240.00		
9	द्वितीय पक्ष को देय भूखंड के कुल क्षेत्रफल का मूल्य	72 X रु० 39,600.00= रु० 28,51,200.00		
10	कुल मालियत	रु० 33,22,440.00		
11	कॉलम सं०-10 में अंकित कुल मालियत पर द्वितीय पक्ष द्वारा देय कुल स्टाम्प एवं	रु० 33,22,440.00 X 7% = 2,32,575.00		
	निबन्धन/पंजीयन शुल्क	रु० 33,22,440.00 X 1% = 33,225.00		
12	प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को उसकी समायोजित भूमि (50 प्रतिशत) 89.00 वर्ग मी० के सापेक्ष उपलब्ध करायी गयी, 72.00 वर्ग मी० भूमि अर्थात् 17.00 वर्ग मी० कम भूमि के सापेक्ष, प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को कम भूमि का मूल्य घनांक रु० 4,71,240.00 में से स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन शुल्क धनराशि रु० 2,65,910.00 समायोजित कर शेष धनराशि रु०-2,05,330.00 का भुगतान बैंक सं०-400663 दिनांक 11.03.2026 के द्वारा द्वितीय पक्ष को किया जा रहा है।	रु०- 2,05,330.00		

अतः द्वितीय पक्ष द्वारा अनुसूची-अ में वर्णित आवासीय भूखण्ड का उपयोग, मुरादाबाद विकास क्षेत्र की महायोजना के भू-उपयोग के आधार पर, उपयोग किया जाना है।


सहा० सम्पत्ति प्रभारी
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण
मुरादाबाद



आवेदन सं०: 202600719010447

विनिमय विलेख

बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 4228

वर्ष: 2026

प्रतिफल- 3322440 स्टाम्प शुल्क- 232610 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 33230 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 60 बीग : 33290

श्री इफतेखार अली,
पुत्र श्री बत्रे
व्यवसाय : अन्य

निवासी: भोला सिंह की मिलक तहसील व जिला मुरादाबाद

Labadar



ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 17/03/2026 एवं 05:03:13 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

जयप्रकाश
उप निबंधक : सदर प्रथम
मुरादाबाद
17/03/2026

कल्पित कुमार
निबंधक/लिपिक
17/03/2026



यह विलेख साक्षी है कि, अनुसूची-अ में वर्णित भूखण्डों को, द्वितीय पक्ष के पक्ष में, विनिमय किये जाने हेतु, प्रथम पक्ष एतद्वारा स्वीकार करता है, कि प्रतिफलस्वरूप, तथा आगे वर्णित प्रसंविदाओं और शर्तों, जिनका द्वितीय पक्ष पालन करेगा, को ध्यान में रखकर, प्रथम पक्ष वह भूखण्ड, उसकी सीमाओं सहित, जिसका विवरण इस विलेख की अनुसूची-अ में दिया गया है, इस विनिमय विलेख के निष्पादन के दिनांक से, इसकी अनुसूची-अ में वर्णित भूखण्डों पर द्वितीय पक्ष को समस्त वैधानिक आवश्यकतायें/विधिक औपचारिकताएँ पूर्ण होने के पश्चात, कब्जा प्राप्त हो जायेगा तथा प्रथम पक्ष/मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के अभिलेखों में द्वितीय पक्ष का नाम नियमानुसार अंकित किया जायेगा तथा अनुसूची-ब में वर्णित भूमि, पर प्रथम पक्ष/एम०डी०ए० को निजी स्वामित्व एवं कब्जा प्राप्त हो जायेगा तथा राजस्व अभिलेखों में प्रथम पक्ष, प्रथम पक्ष/मुरादाबाद विकास प्राधिकरण अपना नाम दर्ज कराने का पूर्ण अधिकारी होगा। द्वितीय पक्ष प्रभावी विधि, नियमों एवं विनियमों के अधीन, उक्त भूखण्ड को हस्तान्तरित कर सकेगा एवं भूखण्ड पर निर्माण किये जाने वाले भवन पर देय करों को अथवा उस पर भविष्य में लगाये जाने वाले करों का भुगतान करेगा तथा निर्माण करने से पूर्व, नियमानुसार, तत्समय लागू विकास शुल्क का भुगतान करते हुए, प्रथम पक्ष से अनुज्ञा प्राप्त करेगा। विनिमय विलेख के निष्पादन होने के उपरान्त, द्वितीय पक्ष एवं उसके वारिसान द्वारा भविष्य में अनुसूची ब में वर्णित भूमि पर किसी प्रकार का दावा/वाद-विवाद, किसी भी न्यायालय में करने का अधिकारी नहीं होगा। विनिमय विलेख निष्पादित होने के उपरान्त, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण/प्रथम पक्ष को द्वितीय पक्ष से प्राप्त भूमि पर विकास कार्य करने का पूर्ण अधिकार होगा और इस सम्बन्ध में द्वितीय पक्ष को किसी भी प्रकार की, कोई भी आपत्ति करने का अधिकार नहीं होगा। इस विनिमय विलेख के निष्पादन की तिथि से अनुसूची-ब में वर्णित भूमि में द्वितीय पक्ष का स्वामित्व, कब्जा एवं समस्त अधिकार समाप्त हो जायेगे एवं स्वामित्व एवं कब्जा सम्बन्धी समस्त अधिकार पूर्णतः प्रथम पक्ष को प्राप्त होंगे, तथा किसी भी प्रकार का कोई भी क्लेम/दावा इस बावत द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष के विरुद्ध, किसी भी न्यायालय के समक्ष योजित नहीं किया जायेगा। इस विलेख के निष्पादन एवं पंजीयन के सम्बन्ध में होने वाले सम्पूर्ण व्यय को द्वितीय पक्ष द्वारा वहन किया जा रहा है।

यह स्पष्ट किया जाता है, कि इस विलेख में प्रयुक्त शब्द प्रथम पक्ष और द्वितीय पक्ष के सम्बन्ध में, जब तक कि उनकी इस प्रकार की व्याख्या प्रसंगों से असंगत न हो, प्रथम पक्ष उसके पद के उत्तराधिकारियों एवं समनुदेशितियों का तथा द्वितीय पक्ष में उसके दावाधिकारियों निष्पादकों, प्रबन्धकों, प्रतिनिधियों एवं समनुदेशितियों का अन्तर्भाव सदैव रहेगा। इस विनिमय विलेख के साक्ष्य में द्वितीय पक्ष ने और प्रथम पक्ष की ओर से उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी ने, उस तिथि को हस्ताक्षर कर दिये हैं, जो उनके हस्ताक्षर के नीचे लिखी है। इस विलेख में अभिदिष्ट अनुसूची निम्नवत है :-

अनुसूची-अ

जिसके स्वामी फरीक अब्दुल/प्रथम पक्ष मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद है तथा जिसकी आराजी/सम्पत्ति फरीक दायम/द्वितीय पक्ष को विनिमय की जा रही है। सम्पत्ति का विवरण-

भूखंड संख्या	भूखंड का क्षेत्रफल	
पॉकेट-ए (सेक्टर-2)-भूखण्ड सं०- 191	72.00 व०मी०	
भूखंड का कुल क्षेत्रफल	72.00 व०मी०	
इस प्रकार निबन्धन हेतु भूखण्ड का कुल क्षेत्रफल	72.00 व०मी०	

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

सह० सम्पत्ति प्रभारी
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण
मुरादाबाद



कल्पित कृष्ण
निबंधक लिपि मुंबई मुंबई
17/03/2026



विश्वविद्यालय विभाग उत्तर प्रदेश

अनुसूची-ब


जिसके स्वामी फरीक दायम/द्वितीय पक्ष श्री इफ्तेखार अली पुत्र श्री बन्ने खॉ निवासी- भोला सिंह की मिलक तहसील व जिला मुरादाबाद आराजी/सम्पत्ति फरीक गाटा संख्या- 628 अ एवं 628 ब की कुल भूमि 0.0178 व0मी0 (Rounded Off 0.0178 हेक्टे0) अब्बल/प्रथम पक्ष को विनिमय की जा रही है तथा जिसका विवरण निम्नवत है:-

सम्पत्ति का विवरण/फोटोग्राफ



नोट:- द्वितीय पक्ष द्वारा दिये गये शपथ पत्र के अनुसार द्वितीय पक्ष को नाम उद्धरण खतौनी में इफ्तेखार अली पुत्र बन्ने है जबकि आधार कार्ड व पैन कार्ड आदि में इस्तेखार अली पुत्र श्री बन्ने है। विनिमय डीड के माध्यम से मुरादाबाद विकास प्राधिकरण से प्राप्त भूखण्डों को द्वितीय पक्ष को इस्तेखार अली पुत्र बन्ने के नाम से विक्रय करने का पूर्ण अधिकार होगा।

Handwritten signature



Handwritten signature
सहा० सम्पत्ति प्रभारी
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण
मुरादाबाद



आवेदन सं०: 202600719010447

बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 4228

वर्ष: 2026

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

प्रथम पक्ष: 1

श्री सहायक सम्पत्ति प्रभारी एम०डी०ए० मुरादाबाद के द्वारा देवेन्द्र सिंह यादव,

MORADABAD DEVELOPMENT AUTHORITY

पुत्र श्री राम मूर्ति यादव

निवासी: एम०डी०ए० मुरादाबाद

व्यवसाय: नौकरी

पक्षकार द्वारा सत्यापित पैन XXXXXX 731M

द्वितीय पक्ष: 1



श्री इफतेखार अली,

ISTAKHAR ALI

पुत्र श्री बत्रे

निवासी: भोला सिंह की मिलक तहसील व जिला मुरादाबाद

व्यवसाय: अन्य

पक्षकार द्वारा सत्यापित पैन XXXXXX 761Q



ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान

पहचानकर्ता: 1

श्री नरेन्द्र सिंह, पुत्र श्री खेम सिंह

निवासी: लेखपाल सोनकपुर मुरादाबाद

व्यवसाय: नौकरी

पहचानकर्ता: 2



श्री दिलीप यादव, पुत्र श्री रंजीत सिंह यादव

निवासी: कार्यालय एम०डी०ए०

व्यवसाय: नौकरी

ने की। प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है।
टिप्पणी:



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

जय प्रकाश
उप निबंधक - सदर प्रथम
मुरादाबाद
17/03 2026

उभय पक्षों द्वारा आपसी सहमति के आधार पर निम्न गवाहों के समक्ष विनिमय/समायोजन डीड पर हस्ताक्षर किये गये।

साक्षी नम्बर 1 -

हस्ताक्षर



नाम- श्री नरेन्द्र

पदनाम - क्षेत्रीय लेखपाल, ग्राम सोनकपुर, तहसील व जिला मुरादाबाद।

पिता का नाम - श्री खेम सिंह



साक्षी नम्बर 2 -



हस्ताक्षर



नाम - श्री दिलीप यादव

पदनाम - लिपिक मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद।

पिता का नाम - स्व० रंजीत सिंह यादव




सहा० सम्पत्ति प्रभारी
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण
मुरादाबाद



आवेदन सं०: 202600719010447

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 20857 के पृष्ठ 281 से 296 तक क्रमांक 4228 पर
दिनांक 17/03/2026 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर


जय प्रकाश
उप निबंधक : सतर प्रथम
मुरादाबाद
17/03/2026



स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, उत्तर प्रदेश

पूर्व रजिस्ट्रीकरण विवरण

आवेदन संख्या: 202600719010447 जनपद: मुरादाबाद तहसील: मुरादाबाद उप निबंधक: सदर प्रथम

संपत्ति का विवरण	: मोहल्ला/गाँव : सोनकपुर वार्ड/परमना : मुरादाबाद संपत्ति का विवरण : भूखण्ड सं० 191 रक० 72 वर्ग मी० खसरा 640, 0.0, पूर्व-, पश्चिम-, उत्तर-, दक्षिण-
अभिलेख प्रकार	: विविध विलेख
प्रथम पक्ष	: महाश्वक सम्पत्ति प्रभारी एम०डी०ए० मुरादाबाद, मुरादाबाद, पैन न०- , मोबाइल संख्या- , निवासी- मुरादाबाद ।
द्वितीय पक्ष	: इन्सुलर अली, बन्ने, पैन न०- BE YPA9761Q , मोबाइल संख्या- 9410678807 , निवासी- भोला सिंह की मितक तहसील व जिला मुरादाबाद ।
निष्पादन तिथि	: 17-03-2026
निबंधन शुल्क	: 33230 (ई-भुगतान) चालान सं०
स्टाम्प मूल्य	: ₹ 232610 ई-स्टाम्प सं० IN-UP59422357941797Y
घास्तबिक वाज्तारी मूल्य	: ₹ 0.00
प्रतिफल	: ₹ 3322440

मैं/हम एतद्वारा यह घोषणा करते हैं कि इस ऑनलाइन आवेदन में समस्त प्रविष्टियां संबंधित लेखपत्र में निहित तथ्यों के अनुरूप हैं।

मैं आधार धारक, इसके द्वारा स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, उत्तर प्रदेश को मेरे आधार नंबर को ई.के.वाई.सी. एवं पहचान के सत्यापन के लिए अपने अंगूठे के स्कैन के माध्यम से यू.आई.डी.ए.आई. को मेरे आधार नंबर, बायोमेट्रिक आदि का उपयोग करने की सहमति देता हूँ। स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग उत्तर प्रदेश ने मुझे सूचित किया है कि मेरा आधार नंबर और साथ ही बायोमेट्रिक को संग्रहित/ साझा नहीं किया जाएगा और संपत्ति पंजीकरण प्रक्रिया में मदद करने के लिए केवल मेरी पहचान सत्यापन के लिए प्रयोग किया जाएगा।

हस्ताक्षर

(प्रथम पक्ष)

निबंधन लिपिक

सदर प्रथम, जनपद मुरादाबाद

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

सदर प्रथम, जनपद मुरादाबाद

हस्ताक्षर

(द्वितीय पक्ष)





INDIA NON JUDICIAL



IN-UP50605310336558Y


Government of Uttar Pradesh


e-Stamp



4227
26


Certificate No. : IN-UP50605310336558Y
 Certificate Issued Date : 12-Mar-2026 11:48 AM
 Account Reference : NEWIMPACC (SV)/ up14675304/ MURADABAD SADAR/ UP-MRD
 Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUP1467530495964673023000Y
 Purchased by : MORADABAD DEVELOPMENT AUTHORITY MORADABAD
 Description of Document : Article 31 Exchange of property
 Property Description : PROPERTY SITUATED AT SAHYADRI YOJNA (PURV MAI SONAKPUR YOJNA) TEH AND DISTT MORADABAD
 Consideration Price (Rs.) :
 First Party : MORADABAD DEVELOPMENT AUTHORITY MORADABAD
 Second Party : IQBAL ALI SO BANNEY KHAN
 Stamp Duty Paid By : MORADABAD DEVELOPMENT AUTHORITY MORADABAD
 Stamp Duty Amount(Rs.) : 2,32,610
 (Two Lakh Thirty Two Thousand Six Hundred And Ten only)



VERIFIED BY  type below this line

LOCKED BY 




 सहा० सम्पत्ति प्रमारी
 मुरादाबाद विकास प्राधिकरण
 मुरादाबाद

PF 0015478378


Statutory Alert

1. The Authenticity of any Stamp purchased/ issued be verified at www.indiakastanews.com or Online Stamp Verification System (www.india.gov.in)
2. The duty of checking the genuineness of the stamp is on the party of the certificate.
3. In case of any discrepancy, please inform the Competent Authority.

544



11/11/1950



भूखण्ड की कुल कीमत रू०	:- 33,22,440.00
मालियत पूर्णांक करने	
के पश्चात देय स्टाम्प रू०	:- 2,32,575.00
ई-स्टाम्प नंबर	:- IN-UP50605310336558Y
ई-स्टाम्प रू०	:- 2,32,610.00
निबन्धन शुल्क रू०	:-

समायोजन/विनिमय डीड

आज दिनांक-17/03/2026 को यह समायोजन/विनिमय डीड मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद द्वारा श्री देवेन्द्र सिंह यादव, सहायक सम्पत्ति प्रभारी, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, जिन्हे आगे प्रथम पक्ष कहा गया है

एवं

श्री इकबाल अली पुत्र श्री बन्ने खॉ निवासी-भोला सिंह की मिलक तहसील व जिला मुरादाबाद जिन्हे आगे द्वितीय पक्ष कहा गया है, के मध्य अनुसूची-अ व ब में वर्णित भूमि का विनिमय-विलेख समायोजित भूखण्ड/भूमि का स्वामित्व एवं कब्जा प्रदान किये जाने हेतु निष्पादित किया जा रहा है। सहयाद्रि योजना (पूर्व में सोनकपुर योजना) के अन्तर्गत कतिपय भू-स्वामियों की कुछ भूमि ऐसी भी है, जो न तो अधिग्रहीत की गयी है और न ही प्राधिकरण द्वारा क्रय की गयी है, ऐसी भूमि के सम्बन्ध में भू-स्वामियों की भूमि के बदले 50 प्रतिशत भूमि के विकसित भूखण्ड, भू-स्वामियों को दिये जाने तथा विकसित भूखण्डों पर नियमानुसार विकास शुल्क प्राप्त किये जाने की स्वीकृति, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की 133वीं बोर्ड बैठक दिनांक- 05.09.2023 के मद सं०-133/05 तथा 142वीं बोर्ड बैठक दिनांक- 27.09.2025 के मद संख्या- 142/03 में दी जा चुकी है।

और चूंकि प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष की, अनुसूची में वर्णित भूखण्ड/कृषि भूमि, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की ग्राम-सोनकपुर, तहसील व जिला- मुरादाबाद में सहयाद्रि योजना के अन्तर्गत स्थित है, अतः उक्त प्रस्ताव के प्रकाश में आगे अभिव्यक्त अधिकारों एवं शर्तों के अधीन, अनुसूची में निर्दिष्ट भूखण्ड/भूमि, जिसको मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के विकसित क्षेत्र में होने के कारण, विनिमय के आधार पर प्रदान किया जा रहा है, द्वितीय पक्ष को हस्तान्तरित किया जा रहा है।



सहा० सम्पत्ति प्रभारी
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण
मुरादाबाद



ग्राम-सोनकपुर तहसील व जिला मुरादाबाद स्थित गाटा संख्या- 628 अ एवं 628 ब की कुल भूमि 0.0178 व0मी0 (Rounded Off 0.0178 हेक्टे0) भूमि का जिलाधिकारी, मुरादाबाद द्वारा निर्धारित दर के अनुसार भूमि की मालियत की गणना निम्नवत् है :-

तालिका- 1

गाटा संख्या	रकबा हैक्टे0 में	जिलाधिकारी, मुरादाबाद द्वारा 2025-26 की निर्धारित सर्किल दर	मालियत रूपये में
628 अ एवं ब	178.00व0मी0 (Rounded off 0.0178 हेक्टे0)	9000/- प्रति वर्ग मी0	16,02,000.00
कुल घनांक रू0			16,02,000.00

तालिका- 2

द्वितीय पक्ष को दिये जाने वाले भूखण्डों व धनराशि सहित कुल मालियत-

भूखण्ड सं0	कुल रकबा वर्ग मी0 में	मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा भूखण्डों की निर्धारित की गयी आवासीय दर	मालियत रूपये में
पॉकेट-ए (सेक्टर-2) के भूखण्ड संख्या- 194 अर्थात 01 भूखण्ड (भूखण्ड का क्षेत्रफल 72.00 व0मी0-टाईप- डी)	72.00	39,600/- प्रति वर्ग मी0	28,51,200.00
देय भूखण्डों का क्षेत्रफल 50% से कम होने के कारण, कम क्षेत्रफल 17.00 व0मी0 के सापेक्ष प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को देय धनराशि	17.00	27,720/- प्रति वर्ग मी0	4,71,240.00
कुल मालियत			33,22,440.00


उपरोक्त वर्णित तालिकाओं में तालिका- 2 में अंकित भूखण्डों की मालियत अधिक होने के कारण उक्त मालियत पर स्टाम्प अदा किया जा रहा है, जिसका विवरण तालिका- A में अंकित गया है।

मुरादाबाद विकास प्राधिकरण बोर्ड के उक्त निर्णय के अनुपालन में प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष के स्वामित्व की गाटा संख्या- 628 अ एवं 628 ब की कुल भूमि 178.00व0मी0 (Rounded off 0.0178 हेक्टे0) योजना के अन्तर्गत स्थित होने के क्रम में समायोजित होने वाले देय विकसित भूखण्ड का विवरण इस प्रकार है :-

तालिका- A

1	द्वितीय पक्ष/भू-स्वामी का नाम व पता	श्री इकबाल अली पुत्र श्री बन्ने खॉ निवासी-भोला सिंह की मिलक तहसील व जिला मुरादाबाद	
2	द्वितीय पक्ष की भूमि का गाटा संख्या एवं प्रभावित क्षेत्रफल	गाटा संख्या- 628 अ एवं 628 ब की कुल भूमि 0.0178 व0मी0 (Rounded Off 0.0178 हेक्टे0)	
3	बोर्ड निर्णय अनुसार 50% भूमि का क्षेत्रफल	89.00 वर्ग मी0	
4	समायोजन/बिनिमय हेतु प्रस्तावित आवासीय भूखण्डों का विवरण	पॉकेट-ए (सेक्टर-2) के भूखण्ड संख्या- 194 अर्थात 01 भूखण्ड	72.00 व0मी0
पॉकेट-ए (सेक्टर-2) के भूखण्ड संख्या- 194 अर्थात 01 भूखण्ड (भूखण्ड का क्षेत्रफल 72.00व0मी0-टाईप- डी) पूर्ण रूप से गाटा संख्या- 640 पर अवस्थित है।			





सहा० सम्पत्ति प्रमारी
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण
मुरादाबाद



5	गाटा संख्या- 628 अ एवं 628 ब की कुल भूमि 0.0178 वर्गमी० (Rounded Off 0.0178 हेक्टे०) भूमि का 50 प्रतिशत, समायोजित भूमि क्षेत्रफल 89.00 वर्ग मीटर भूमि के सापेक्ष, विकसित भूखंड के कुल क्षेत्रफल 72.00 वर्ग मी०, द्वितीय पक्ष को दिया जा रहा है तथा अतिरिक्त क्षेत्रफल 17.00 वर्ग मी० भूमि के मूल्य का भुगतान प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को किया जा रहा है। द्वितीय पक्ष द्वारा विनिमय विलेख निष्पादित करने पर आने वाले व्यय (स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन शुल्क) का वहन करने में असमर्थता व्यक्त करने के कारण द्वितीय पक्ष को देय धनराशि में से उक्त धनराशि का समायोजन किया जा रहा है।	कुल 01 भूखण्ड	भूखण्डों का कुल क्षेत्र	72.00 वर्ग मी०
6	समायोजन/विनिमय हेतु प्रस्तावित आवासीय भूखण्डों का कुल क्षेत्रफल	72.00 वर्गमी०		
7	निर्धारित 50% से क्षेत्रफल (अधिक/कम)	89.00-72.00= 17.00 वर्ग मी० कम		
8	द्वितीय पक्ष को देय 17.00 वर्ग मी० कम भूमि के सापेक्ष प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को देय धनराशि, जिसका भुगतान प्राधिकरण द्वारा 142वीं बोर्ड बैठक में लिए गये निर्णय के क्रम में प्रथम पक्ष द्वारा किया जा रहा है।	रु० 4,71,240.00		
9	द्वितीय पक्ष को देय भूखंड के कुल क्षेत्रफल का मूल्य	72 X रु० 39,600.00= रु० 28,51,200.00		
10	कुल मालियत	रु० 33,22,440.00		
11	कॉलम सं०-10 में अंकित कुल मालियत पर द्वितीय पक्ष द्वारा देय कुल स्टाम्प एवं निबंधन/पंजीयन शुल्क	रु० 33,22,440.00 X 7% = 2,32,575.00 रु० 33,22,440.00 X 1% = 33,225.00		
12	प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को उसकी समायोजित भूमि (50 प्रतिशत) 89.00 वर्गमी० के सापेक्ष उपलब्ध करायी गयी, 72.00 वर्गमी० भूमि अर्थात् 17.00 वर्गमी० कम भूमि के सापेक्ष, प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को कम भूमि का मूल्य धनांक रु० 4,71,240.00 में से स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन शुल्क धनराशि रु० 2,65,910.00 समायोजित कर शेष धनराशि रु०-2,05,330.00 का भुगतान चैक सं०-400661 दिनांक 11.03.2026 के द्वारा द्वितीय पक्ष को किया जा रहा है।	रु०- 2,05,330.00		

अतः द्वितीय पक्ष द्वारा अनुसूची-अ में वर्णित आवासीय भूखण्ड का उपयोग, मुरादाबाद विकास क्षेत्र की महायोजना के भू-उपयोग के आधार पर, उपयोग किया जाना है।




सहा० सम्पत्ति प्रशासी
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण
मुरादाबाद



आवेदन सं०: 202600719010124

विनिमय विलेख

वही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 4227

वर्ष: 2026

प्रतिफल- 3322440 स्टाम्प शुल्क- 232610 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 33230 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 60 योग: 33290

श्री इकबाल अली,
पुत्र श्री बन्ने खां
व्यवसाय: नौकरी
निवासी: भोला सिंह की मिलक तहसील व जिला मुरादाबाद



ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 17/03/2026 एवं 05:04:51 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

जय प्रकाश
उप निबंधक : सदर प्रथम
मुरादाबाद
17/03/2026

कल्पिता कुमार
निबंधक लिपिक
17/03/2026



यह विलेख साक्षी है कि, अनुसूची-अ में वर्णित भूखण्डों को, द्वितीय पक्ष के पक्ष में, विनिमय किये जाने हेतु, प्रथम पक्ष एतद्वारा स्वीकार करता है, कि प्रतिफलस्वरूप, तथा आगे वर्णित प्रसंविदाओं और शर्तों, जिनका द्वितीय पक्ष पालन करेगा, को ध्यान में रखकर, प्रथम पक्ष वह भूखण्ड, उसकी सीमाओं सहित, जिसका विवरण इस विलेख की अनुसूची-अ में दिया गया है, इस विनिमय विलेख के निष्पादन के दिनांक से, इसकी अनुसूची-अ में वर्णित भूखण्डों पर द्वितीय पक्ष को समस्त वैधानिक आवश्यकतायें/विधिक औपचारिकताएँ पूर्ण होने के पश्चात, कब्जा प्राप्त हो जायेगा तथा प्रथम पक्ष/मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के अभिलेखों में द्वितीय पक्ष का नाम नियमानुसार अंकित किया जायेगा तथा अनुसूची-ब में वर्णित भूमि, पर प्रथम पक्ष/एम०डी०ए० को निजी स्वामित्व एवं कब्जा प्राप्त हो जायेगा तथा राजस्व अभिलेखों में प्रथम पक्ष, प्रथम पक्ष/मुरादाबाद विकास प्राधिकरण अपना नाम दर्ज कराने का पूर्ण अधिकारी होगा। द्वितीय पक्ष प्रभावी विधि, नियमों एवं विनियमों के अधीन, उक्त भूखण्ड को हस्तान्तरित कर सकेगा एवं भूखण्ड पर निर्माण किये जाने वाले भवन पर देय करों को अथवा उस पर भविष्य में लगाये जाने वाले करों का भुगतान करेगा तथा निर्माण करने से पूर्व, नियमानुसार, तत्समय लागू विकास शुल्क का भुगतान करते हुए, प्रथम पक्ष से अनुज्ञा प्राप्त करेगा। विनिमय विलेख के निष्पादन होने के उपरान्त, द्वितीय पक्ष एवं उसके वारिसान द्वारा भविष्य में अनुसूची ब में वर्णित भूमि पर किसी प्रकार का दावा/वाद-विवाद, किसी भी न्यायालय में करने का अधिकारी नहीं होगा। विनिमय विलेख निष्पादित होने के उपरान्त, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण/प्रथम पक्ष को द्वितीय पक्ष से प्राप्त भूमि पर विकास कार्य करने का पूर्ण अधिकार होगा और इस सम्बन्ध में द्वितीय पक्ष को किसी भी प्रकार की, कोई भी आपत्ति करने का अधिकार नहीं होगा। इस विनिमय विलेख के निष्पादन की तिथि से अनुसूची-ब में वर्णित भूमि में द्वितीय पक्ष का स्वामित्व, कब्जा एवं समस्त अधिकार समाप्त हो जायेगे एवं स्वामित्व एवं कब्जा सम्बन्धी समस्त अधिकार पूर्णतः प्रथम पक्ष को प्राप्त होंगे, तथा किसी भी प्रकार का कोई भी क्लेम/दावा इस बावत द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष के विरुद्ध, किसी भी न्यायालय के समक्ष योजित नहीं किया जायेगा। इस विलेख के निष्पादन एवं पंजीयन के सम्बन्ध में होने वाले सम्पूर्ण व्यय को द्वितीय पक्ष द्वारा वहन किया जा रहा है।

यह स्पष्ट किया जाता है, कि इस विलेख में प्रयुक्त शब्द प्रथम पक्ष और द्वितीय पक्ष के सम्बन्ध में, जब तक कि उनकी इस प्रकार की व्याख्या प्रसंगों से असंगत न हो, प्रथम पक्ष उसके पद के उत्तराधिकारियों एवं समनुदेशितियों का तथा द्वितीय पक्ष में उसके दावाधिकारियों निष्पादकों, प्रबन्धकों, प्रतिनिधियों एवं समनुदेशितियों का अन्तर्भाव सदैव रहेगा। इस विनिमय विलेख के साक्ष्य में द्वितीय पक्ष ने और प्रथम पक्ष की ओर से उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी ने, उस तिथि को हस्ताक्षर कर दिये हैं, जो उनके हस्ताक्षर के नीचे लिखी है। इस विलेख में अभिदिष्ट अनुसूची निम्नवत है :-

अनुसूची-अ

जिसके स्वामी फरीक अव्वल/प्रथम पक्ष मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद है तथा जिसकी आराजी/सम्पत्ति फरीक दोगम/द्वितीय पक्ष को विनिमय की जा रही है। सम्पत्ति का विवरण-

भूखंड संख्या	भूखंड का क्षेत्रफल	
पॉकेट-ए (सेक्टर-2)-भूखण्ड सं०- 194	72.00 वर्गमी०	
भूखंड का कुल क्षेत्रफल	72.00 वर्गमी०	
इस प्रकार निबन्धन हेतु भूखण्ड का कुल क्षेत्रफल	72.00 वर्गमी०	


सहा० सम्पत्ति प्रभारी
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण
मुरादाबाद


अनुसूची-ब

जिसके स्वामी फरीक दोगम/द्वितीय पक्ष श्री इकबाल अली पुत्र श्री बन्ने खॉ निवासी-भोला सिंह की मिलक तहसील व जिला- मुरादाबाद आराजी/सम्पत्ति फरीक गाटा संख्या- 628 अ एवं 628 ब की कुल भूमि 178.00व0मी0 (Rounded off 0.0178 हेक्टे0) अब्बल/प्रथम पक्ष को विनिमय की जा रही है तथा जिसका विवरण निम्नवत है:-

सम्पत्ति का विवरण/फोटोग्राफ






सहा० सम्पत्ति प्रणारी
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण
मुरादाबाद



आवेदन सं०: 202600719010124

बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 4227

वर्ष: 2026

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त
प्रथम पक्ष: 1

श्री सहायक सम्पत्ति प्रभारी मुरादाबाद विकास
प्राधिकरण के द्वारा देवेन्द्रसिंह यादव,

MORADABAD DEVELOPMENT
AUTHORITY

पुत्र श्री राम मूर्ति यादव

निवासी: कार्यालय एम०डी०ए०

व्यवसाय: नौकरी

पक्षकार द्वारा सत्यापित पैन् XXXXXX 731M

द्वितीय पक्ष: 1



श्री इकबाल अली,

IQBAL ALI

पुत्र श्री बत्रे खां

निवासी: भोला सिंह की मिलक तहसील व जिला मुरादाबाद

व्यवसाय: नौकरी

पक्षकार द्वारा सत्यापित पैन् XXXXXX 818L



ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान
पहचानकर्ता : 1

श्री नरेन्द्र सिंह, पुत्र श्री खेम सिंह

निवासी: लेखपाल सोनकपुर मुरादाबाद

व्यवसाय: नौकरी

पहचानकर्ता : 2



श्री दिलीप यादव, पुत्र श्री रंजीत सिंह यादव

निवासी: एम०डी०ए० मुरादाबाद

व्यवसाय: नौकरी

ने की। प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है।
टिप्पणी:



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

जय प्रकाश,
उप निबंधक सदर प्रथम
मुरादाबाद
17/03/2026

उभय पक्षों द्वारा आपसी सहमति के आधार पर निम्न गवाहों के समक्ष विनिमय/समायोजन डीड पर हस्ताक्षर किये गये।

साक्षी नम्बर 1 -

हस्ताक्षर



नाम- श्री नरेन्द्र

पदनाम - क्षेत्रीय लेखपाल, ग्राम सौनकपुर, तहसील व जिला मुरादाबाद।

पिता का नाम - श्री खेम सिंह



साक्षी नम्बर 2 -

हस्ताक्षर



नाम - श्री दिलीप यादव

पदनाम - लिपिक, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद।

पिता का नाम - स्व० रंजीत सिंह यादव



सहा० सम्पत्ति प्रभारी
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण
मुरादाबाद



आवेदन सं०: 202600719010124

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 20857 के पृष्ठ 265 से 280 तक क्रमांक 4227 पर
दिनांक 17/03/2026 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

जय प्रकाश

उप निबंधक : नगर प्रथम

मुरादाबाद

17/03/2026

